



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 20—अगस्त 26, 2005 (श्रावण 29, 1927)  
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 20—AUGUST 26, 2005 (SRAVANA 29, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय  
(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 2005

सं. 403, दिनांक 14 जुलाई 2005.--राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (1979) के अधिकारी श्री एस. एस. मोहनती, को दिनांक 04 जुलाई, 2005 के पूर्वाह्न से आरंभ में तीन वर्षों की अवधि के लिए, जो पांच वर्षों तक बढ़ायी जा सकती है, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग के अधिप्राप्ति विंग में वित्त प्रबंधक (एम एंड एस) के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (1979) के अधिकारी श्री परस राम, को दिनांक 04 जुलाई, 2005 के पूर्वाह्न से आरंभ में तीन वर्षों की अवधि के लिए, जो पांच वर्षों तक बढ़ायी जा सकती है, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग के अधिप्राप्ति विंग में वित्त प्रबंधक (एल एस) के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को 28.06.2005 (पूर्वाह्न) से 26.12.2005 तक अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो,

रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में 6500-200-10500/- रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं. अधिकारी का नाम

- | 1   | 2                   |
|-----|---------------------|
|     | सर्वश्री            |
| 1.  | जे. के. जैन         |
| 2.  | एम. के. गुप्ता      |
| 3.  | श्रीमती अनीता सियाल |
| 4.  | के. एल. गुलाटी      |
| 5.  | रमेश चंद            |
| 6.  | दीपक भम्बानी        |
| 7.  | श्रीमती आमंदा मदुरा |
| 8.  | एन. कुमार नायर      |
| 9.  | ए. के. सहगल         |
| 10. | एच. सी. तंवर        |
| 11. | गोविंद प्रसाद       |

1	2
	सर्वश्री
12.	श्रीमती के. सरस्वती
13.	बी. के. कौरा
14.	डी. आर. साहु
15.	श्रीमती निर्मला चाबरा
16.	ए. के. सक्सेना
17.	श्रीमती संतोष कुमारी
18.	श्रीमती भागवती
19.	डी. पी. तंवर
20.	शंकर गांगुली
21.	दौलत राम

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तिथि से 26.12.2005 तक अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में 6500-200-10500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	प्रभावी होने की तारीख
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	सुख देव	30.06.2005
2.	टी. डी. खट्टर	01.07.2005
3.	राजेन्द्र सिंह	30.06.2005
4.	बी. पी. सिंह	29.06.2005
5.	कृष्ण प्रसाद	01.07.2005
6.	श्रीमती चन्द्र कांता	01.07.2005
7.	श्रीमती कांता कामरा	01.07.2005

एम. सी. लूथर  
उप वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 404, दिनांक 15 जुलाई 2005.--राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित सहायकों को स से मु सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत 24 फरवरी 2005 से 23 अगस्त 2005 तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध

होने तक अथवा उनके सेवानिवृत्त होने तक, जो भी पहले हो अनुभाग अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं :--

श्री देव राज  
श्री दुली चंद  
श्री रघु राज सिंह  
श्री एस. के. बहल  
श्री आर के शर्मा  
श्री प्रेम सिंह  
श्री पी. एन. शर्मा  
श्रीमती निर्मला  
श्री आर. सी. हशवानी  
श्री शंकर बोस  
श्री जी. एस. वर्मा  
श्री डी. आर. शर्मा

(प्राधिकार ए/47922/अनु अधि/7(8)/2005/का-1/10 मई 2005)

संतोष दासगुप्ता  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

सं. 405, दिनांक 14 जुलाई 2005.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना  
तोपखाना रेजिमेंट

सबस्टैंटिव सूबेदार मेजर (जी डी) के पद में

सूबेदार निशान सिंह (जेसी-223070पी), 12 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003 \*

सूबेदार धरम देव (जेसी-219860एल), 30 जून 2003/01 अप्रैल 2003 \*

सूबेदार बस्ती राम यादव (जेसी-208566वाई), 09 मार्च 2004/01 मार्च 2004 \*

सूबेदार राजेन्द्र नायर (जेसी-220008एक्स), 16 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004 \*

सूबेदार हरवीर सिंह (जेसी-206212एल), 02 मार्च 2004/01 जनवरी 2004 \*

सूबेदार प्रीतम सिंह यादव (जेसी-223241डब्ल्यू), 09 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004 \*

सूबेदार अमर सिंह (जेसी-201259एम), 12 मार्च 2004/01 मार्च 2004 \*

सूबेदार जगबीर सिंह (जेसी-226475एच), 15 मई 2004/01 अप्रैल 2004 \*

सूबेदार गजेन्द्र सिंह (जेसी-225549एच), 01 मई 2004

सूबेदार चन्द्र शेखर शुक्ला (जेसी-223594डब्ल्यू), 01 मई 2004

सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-226276एक्स), 17 मई 2004/01 मई 2004 \*

सूबेदार डोला राम आहिर (जेसी-226223वाई), 01 जून 2004

सूबेदार खोमने कारभारी पंढरीनाथ (जेसी-256105ए), 01 सितम्बर 2004 \*

सूबेदार कृष्णन पाल सिंह भादोरीया (जेसी-225687के), 01 अगस्त 2004

सूबेदार पदमनाभन इपी (जेसी-256984वाई), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार विजयन पी आर (जेसी-226367एफ), 03 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004 \*

सूबेदार काशमीर सिंह (जेसी-257077एल), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-258281डब्ल्यू), 02 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

सूबेदार करन सिंह (जेसी-257281के), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-226636एच), 16 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

सूबेदार ननय्या एम के (जेसी-221123के), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-226546एफ), 06 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-226867वाई), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार जगत सिंह नेगी (जेसी-255147ए), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार तीरथ प्रताप सिंह (जेसी-226485पी), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार हरी राम निवास गिरी (जेसी-225716एन), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार दुर्गा बहादुर थापा (जेसी-223734एक्स), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार भोसले कमलोकर विठल (जेसी-256953वाई), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार काले हनुमंत एस (जेसी-256259एम), 03 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005 \*

सूबेदार जी कस्था पाण्डेयन (जेसी-256098पी), 01 जनवरी 2005

सूबेदार पवार महादेव संभाजी (जेसी-256081एफ), 08 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005 \*

सूबेदार उन्नी कृष्णन नायर (जेसी-201672एच), 07 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005 \*

सूबेदार शिव कुमार यादव (जेसी-225680ए), 01 फरवरी 2005

सूबेदार मलकीत सिंह (जेसी-256708डब्ल्यू), 02 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005 \*

सूबेदार देवी दत्त (जेसी-221266के), 12 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005 \*

सूबेदार रामेन्द्र कुमार (जेसी-226114एम), 14 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005 \*

सूबेदार अमल दास (जेसी-255631एम), 04 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005 \*

सूबेदार विजय सिंह (जेसी-256271एन), 05 अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005 \*

सबस्टैटिव सूबेदार के पद (जी डी)

नायब सूबेदार सुबे सिंह (जेसी-262072डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार ओ ईश्वरन (जेसी-263192एफ), 01 मई 2004

नायब सूबेदार मोहन राम (जेसी-262740एफ), 02 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार सन्तोख राज (जेसी-264113एन), 07 दिसम्बर 2004/01 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार रिसाल सिंह (जेसी-264623पी), 27 नवम्बर 2004/24 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार राज कुमार सिंह (जेसी-261766के), 20 सितम्बर 2004/24 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार लाडू सिंह रावत (जेसी-264488एम), 01 दिसम्बर 2004/24 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार शिव प्रसाद यादव (जेसी-265400के), 24 नवम्बर 2004/24 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-261561पी), 25 अगस्त 2004

नायब सूबेदार हिरेन चन्द्रा राय (जेसी-264890डब्ल्यू), 12 दिसम्बर 2004/25 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार बच्चू सिंह (जेसी-263248एच), 03 नवम्बर 2004/26 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार मधुसुदन टी सी (जेसी-265039के), 21 सितम्बर 2004/27 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार भारत सिंह (जेसी-264507एम), 16 नवम्बर 2004/30 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार प्यारी मोहन राभी (जेसी-264594एल), 16 नवम्बर 2004/30 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जेसी-260755एल), 20 अक्टूबर 2004/31 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार प्रधान सिंह (जेसी-263017एम), 18 नवम्बर 2004/31 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार ए शानमुगा वेलू (जेसी-263731एम), 13 दिसम्बर 2004/31 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार गुलाब यादव (जेसी-263939पी), 21 अक्टूबर 2004/31 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार सुभाष चन्नाप्पागोल (जेसी-264850पी), 01 नवम्बर 2004/31 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार रामदासन के (जेसी-264707एच), 04 नवम्बर 2004/31 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार परमानन्द एस एम (जेसी-264710एच), 09 नवम्बर 2004/31 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार बाक्मीकी उपाध्याय (जेसी-264455एफ), 16 नवम्बर 2004/31 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार एम उदय शंकर (जेसी-264398एल), 11 नवम्बर 2004/31 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार बाटकेश्वर राज (जेसी-264509एक्स), 22 अक्टूबर 2004/31 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार सी लक्ष्मनन (जेसी-265034एल), 09 दिसम्बर 2004/31 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार दुर्गर सिंह (जेसी-265013पी), 03 नवम्बर 2004/31 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-265303एम), 01 नवम्बर 2004/31 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार महावीर सिंह शेखावत (जेसी-265307एच), 03 नवम्बर 2004/31 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार वजीर सिंह (जेसी-265462के), 27 सितम्बर 2004/31 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार हरि सिंह (जेसी-265485एल), 09 नवम्बर 2004/31 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार देब सिंह भण्डारी (जेसी-260949एन), 25 अक्टूबर 2004/01 सितम्बर 2004 \*

नायब सूबेदार बलकार सिंह (जेसी-261989एफ), 09 नवम्बर 2004/01 सितम्बर 2004 \*

नायब सूबेदार रामवतार सिंह (जेसी-261999डब्ल्यू), 12 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार नन्द किशोर राना (जेसी-262416के), 15 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-264670एम), 18 अक्टूबर 2004/01 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-265015ए), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-264181एफ), 21 नवम्बर 2004/10 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-263242एफ), 06 दिसम्बर 2004/10 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार नारायण बारीक (जेसी-263919एफ), 08 दिसम्बर 2004/16 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-262130पी), 09 अक्टूबर 2004/01 सितम्बर 2004 \*

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-262261ए), 11 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004 \*

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद कौशिक (जेसी-262414वाई), 17 अक्टूबर 2004/01 सितम्बर 2004 \*

नायब सूबेदार खेम चन्द (जेसी-262460एन), 10 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004 \*

नायब सूबेदार कुलतार सिंह (जेसी-262775एक्स), 12 अक्टूबर 2004/01 सितम्बर 2004 \*

नायब सूबेदार जस राज सिंह (जेसी-263165एक्स), 13 अक्टूबर 2004/01 सितम्बर 2004 \*

नायब सूबेदार आशा सिंह (जेसी-264154एक्स), 01 जनवरी 2005/01 सितम्बर 2004 \*

नायब सूबेदार कुलबीर सिंह (जेसी-264018एफ), 08 अक्टूबर 2004/01 सितम्बर 2004 \*

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-264325वाई), 06 अक्टूबर 2004/01 सितम्बर 2004 \*

नायब सूबेदार मुखतार सिंह (जेसी-264747के), 08 अक्टूबर 2004/01 सितम्बर 2004 \*

नायब सूबेदार कैलास चन्द शर्मा (जेसी-265310एच), 05 नवम्बर 2004/01 सितम्बर 2004 \*

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-259625डब्ल्यू), 24 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

नायब सूबेदार राम बाबू (जेसी-261211एच), 30 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

नायब सूबेदार कट्यारे बाबासाहेब पांडुरंग (जेसी-263022एक्स), 16 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

नायब सूबेदार ब्रिज मोहन (जेसी-262858एच), 04 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

नायब सूबेदार तावरे बालासाहेब बाबूराव (जेसी-262748एन), 16 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

नायब सूबेदार महावीर प्रसाद पाण्डे (जेसी-262751एन), 23 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

नायब सूबेदार हन्स कुमार (जेसी-263137एल), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-262989एन), 23 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

नायब सूबेदार यशवन्त (जेसी-263394एच), 16 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

नायब सूबेदार भजन सिंह (जेसी-263844पी), 12 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

नायब सूबेदार श्री कुमार के जी (जेसी-263762एम), 30 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

नायब सूबेदार गणपत सिंह (जेसी-263676एफ), 17 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

नायब सूबेदार कामेश्वर सिंघ (जेसी-263871वाई), 26 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

नायब सूबेदार इस्लामुद्दीन (जेसी-263832ए), 26 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

नायब सूबेदार अशोक कुमार राम (जेसी-261654के), 01 मई 2004/01 अक्टूबर 2003 \*

नायब सूबेदार बाबू लाल (जेसी-262502पी), 08 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2003 \*

नायब सूबेदार सन्तोष कुमार सिंह (जेसी-263046एफ), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार मलकीत सिंह (जेसी-263091एन), 15 मार्च 2004/01 अक्टूबर 2003 \*

नायब सूबेदार दिलीप कुमार सिंह (जेसी-261166एफ), 26 जून 2004/01 नवम्बर 2003 \*

नायब सूबेदार रंगा राव (जेसी-262106एच), 11 सितम्बर 2004/01 नवम्बर 2003 \*

नायब सूबेदार दीनार सिंह (जेसी-264350एक्स), 30 अप्रैल 2004/14 दिसम्बर 2003 \*

नायब सूबेदार विष्णू कुमार (जेसी-263935वाई), 15 अगस्त 2004/01 जनवरी 2004 \*

नायब सूबेदार चन्द्र शेखर सूदन (जेसी-260011ए), 10 जुलाई 2004/01 फरवरी 2004 \*

नायब सूबेदार राम दास सिंह (जेसी-261525के), 02 अप्रैल 2004/01 फरवरी 2004 \*

नायब सूबेदार ऐत राज सिंह (जेसी-262310एक्स), 01 मई 2004/01 फरवरी 2004 \*

नायब सूबेदार के पेरूमल (जेसी-263583एम), 16 मार्च 2004/01 फरवरी 2004 \*

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-262461डब्ल्यू), 08 अप्रैल 2004/04 मार्च 2004 \*

नायब सूबेदार राम अवतार सिंह (जेसी-262512वाई), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार मास्टर गायडे अशोक (जेसी-263131के), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार धर्माप्पा गौहा एम एन (जेसी-261964पी), 29 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 \*

नायब सूबेदार रामेश्वर दयाल (जेसी-263341के), 05 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 \*

नायब सूबेदार योगेन्द्र बहादुर सिंह (जेसी-263121ए), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार मस्तान सिंह (जेसी-263215एक्स), 20 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 \*

नायब सूबेदार एस गणेशन (जेसी-263964एन), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार अजित सिंह (जेसी-263681एम), 04 मई 2004/01 अप्रैल 2004 \*

नायब सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-263766एच), 27 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 \*

नायब सूबेदार ब्रिज नाथ सिंह (जेसी-264099एम), 02 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 \*

नायब सूबेदार पुरुषोत्तमन कोलनवलप्पील (जेसी-263994एल), 23 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 \*

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-263810एफ), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार फूल सिंह (जेसी-264162डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार रत्ती राम (जेसी-264101वाई), 05 मई 2004/01 अप्रैल 2004 \*

नायब सूबेदार ओंकार सिंह (जेसी-264232के), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार मलखी राम (जेसी-264231एफ), 11 जून 2004/18 अप्रैल 2004 \*

नायब सूबेदार दया नन्द (जेसी-261407डब्ल्यू), 01 मई 2004

नायब सूबेदार बिधी चन्द (जेसी-264072पी), 01 मई 2004

नायब सूबेदार शैलेन्द्र कुमार (जेसी-262975एन), 01 जून 2004

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-260136एक्स), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-263025एल), 05 जुलाई 2004/01 जुलाई 2004 \*

नायब सूबेदार निर्मल हजारा (जेसी-263730के), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार राम कुमार शर्मा (जेसी-264238एल), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार चन्द्र सैन पाण्डेय (जेसी-264695वाई), 17 जनवरी 2005/17 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार पारंबे रमेश दिगंबर (जेसी-264852ए), 04 फरवरी 2005/23 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार बिरपाल शर्मा (जेसी-264631एन), 27 नवम्बर 2004/24 अगस्त 2004 \*

सब्सटैंटिव सूबेदार (आर टी) के पद में

नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-256377ए), 02 मई 2005/07 मई 2005 \*

नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र मिश्रा (जेसी-256696एम), 25 अप्रैल 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार राम गोपाल पाठक (जेसी-258752वाई), 26 अप्रैल 2005/14 जनवरी 2005\*

नायब सूबेदार राम दास शुक्ल (जेसी-258753एफ), 16 अप्रैल 2005/18 मार्च 2005\*

नायब सूबेदार उमेश चन्द्र गौतम (जेसी-258754के), 11 अप्रैल 2005/18 मार्च 2005\*

नायब सूबेदार जितेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-258626एम), 03 अप्रैल 2005/18 मार्च 2005\*

नायब सूबेदार अरविन्द मिश्रा (जेसी-258629ए), 06 अप्रैल 2005/18 मार्च 2005\*

नायब सूबेदार संतोष कुमार त्रिपाठी (जेसी-258627पी), 01 अप्रैल 2005/18 मार्च 2005\*

नायब सूबेदार के पद में

आरएचएम परमजीत सिंह (सं. 14346212वाई अब जेसी-267414एच), 23 अगस्त 2004/21 अप्रैल 2004\*

बीएचएम राधे श्याम (सं. 14365396एक्स अब जेसी-267415एल), 27 सितम्बर 2004/09 मई 2004\*

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 14367704एल अब जेसी-267416एन), 18 अक्टूबर 2004/01 अगस्त 2004\*

हवलदार प्रताप सिंह कुशावह (सं. 14487987एन अब जेसी-267417डब्ल्यू), 31 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004\*

हवलदार प्रेम चन्द चौहान (सं. 14393162के अब जेसी-267418वाई), 09 अक्टूबर 2004/01 अगस्त 2004\*

हवलदार दिलीप कुमार भौमिक (सं. 14344688एम अब जेसी-267419एफ), 03 नवम्बर 2004/01 अगस्त 2004\*

आरएचएम इन्द्रजीत सिंह (सं. 14479841एल अब जेसी-267420डब्ल्यू), 05 अक्टूबर 2004/02 अगस्त 2004\*

हवलदार आर नारायणा सामी (सं. 15113506वाई अब जेसी-267421वाई), 16 नवम्बर 2004/15 अगस्त 2004\*

बी एच एम टोंगे अशोक बापूराव (सं. 14353408पी अब जेसी-267422एफ), 28 सितम्बर 2004/16 अगस्त 2004\*

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं. 14487741पी अब जेसी-267423के), 15 अक्टूबर 2004/20 अगस्त 2004\*

बीएचएम सर्वजीत सिंह (सं. 14348769के अब जेसी-267424एम), 18 अक्टूबर 2004/01 सितम्बर 2004\*

हवलदार राम प्रताप (सं. 15101244एफ अब जेसी-267425पी), 01 सितम्बर 2004

हवलदार महादेव डोमाजी सराडे (सं. 14471462ए अब जेसी-267426एक्स), 16 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004\*

हवलदार वाडीभसमा भैय्या काशीनाथ (सं. 15104273एफ अब जेसी-267427ए), 16 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004\*

हवलदार रनबीर सिंह (सं. 14488651ए अब जेसी-267428एच), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार लाजबीर सिंह (सं. 14357873वाई अब जेसी-267429एल), 10 नवम्बर 2004/04 नवम्बर 2004\*

हवलदार जया सिंह टी (सं. 14396795एच अब जेसी-267430ए), 01 नवम्बर 2004/04 अगस्त 2004\*

हवलदार दलवी बालकृष्ण लक्ष्मन (सं. 14351669के अब जेसी-267431एच), 30 अगस्त 2004/05 अगस्त 2004\*

बीएचएम विजयन पी (सं. 14359521ए अब जेसी-267432एल), 12 अक्टूबर 2004/15 अगस्त 2004\*

हवलदार हरबंस सिंह (सं. 14360659एफ अब जेसी-267433एन), 09 अक्टूबर 2004/18 अगस्त 2004\*

हवलदार विजय पाल सिंह (सं. 14358530पी अब जेसी-267434डब्ल्यू), 12 अक्टूबर 2004/20 अगस्त 2004\*

हवलदार भवानी दत्त (सं. 15474064के अब जेसी-267435वाई), 11 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004\*

आर एच एम राम चन्दर (सं. 14469485एन अब जेसी-267436एफ), 08 अक्टूबर 2004/28 सितम्बर 2004\*

हवलदार धर्म लाल सिंह (सं. 14466785वाई अब जेसी-264337के), 12 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004\*

आर एच एम हौसला प्रसाद सिंह (सं. 14465548एच अब जेसी-267438एम), 14 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004\*

आर एच एम इन्द्रजीत सिंह (सं. 14380135एफ अब जेसी-267439पी), 28 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004\*

हवलदार पुरन सिंह (सं. 14360192एफ अब जेसी-267440के), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 14472696डब्ल्यू अब जेसी-267441एम), 13 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004\*

हवलदार जमदडे मारुती बालू (सं. 14474132एम अब जेसी-267442पी), 11 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004\*

बी एच एम एन शिवानन्दम (सं. 14363559एफ अब जेसी-267443एक्स), 10 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004\*

बी एच एम बख्शीस सिंह (सं. 14354627एच अब जेसी-267444ए), 11 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004\*

हवलदार रामेश्वर तिवारी (सं. 14470553एक्स अब जेसी-267445एच), 06 दिसम्बर 2004/30 नवम्बर 2004\*

नायब सूबेदार (जी डी) के पद में

हवलदार ब्रह्म प्रसाद यादव (सं. 14359432एफ अब जेसी-267246पी), 18 अगस्त 2004/30 नवम्बर 2004\*

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 14363220पी अब जेसी-267247एक्स),  
13 जुलाई 2004/25 फरवरी 2004\*

हवलदार थॉमस पी वी (सं. 14481317डब्ल्यू अब जेसी-267248ए),  
18 अक्टूबर 2004/18 अप्रैल 2004\*

हवलदार राम चन्द्र यादव (सं. 14469087एफ अब जेसी-267249एच), 31 जुलाई 2004/09 मई 2004\*

हवलदार रामेश्वर लाल गौर (सं. 14356505एक्स अब जेसी-267250एक्स), 12 जुलाई 2004/03 जून 2004\*

बी एच एम नेतार सिंह (सं. 14476204के अब जेसी-267251ए), 18 अगस्त 2004/20 जून 2004\*

हवलदार कुमद्राप्प वेन्कटरामन (सं. 14397243वाई अब जेसी-267252एच), 08 जुलाई 2004/25 जून 2004\*

हवलदार रनजीत सिंह (सं. 14467230के अब जेसी-267253एल), 30 जून 2004/29 जून 2004\*

हवलदार साजी राम मीना (सं. 14472440एन अब जेसी-267254एन), 27 अगस्त 2004/10 जुलाई 2004\*

आरएचएम कान्त ग्यारी (सं. 14346734पी अब जेसी-267255डब्ल्यू), 20 जुलाई 2004

हवलदार मोहन सिंह पतवाल (सं. 14390402एल अब जेसी-267256वाई), 24 सितम्बर 2004/01 अगस्त 2004\*

हवलदार राम अवतार सिंह (सं. 14488994डब्ल्यू अब जेसी-267257एफ), 05 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004\*

हवलदार किशन पाल (सं. 14359334एफ अब जेसी-267258के), 11 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004\*

हवलदार सुरिन्दर कुमार (सं. 14473331एन अब जेसी-267259एम), 18 अगस्त 2004/14 अगस्त 2004\*

बीएचएम देव कुमार सा (सं. 14470779एम अब जेसी-267260एफ), 05 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004\*

हवलदार मेघ राज वर्मा (सं. 14485445एल अब जेसी-267261के), 07 जुलाई 2004/29 नवम्बर 2003\*

हवलदार गुमान सिंह (सं. 15109519वाई अब जेसी-267262एम), 20 मई 2004/01 फरवरी 2004\*

हवलदार राकेश कुमार (सं. 14466326ए अब जेसी-267263पी), 28 अप्रैल 2004/21 मार्च 2004\*

बीएचएम मुन्ना लाल ओझा (सं. 14470945एल अब जेसी-267264एक्स), 02 जुलाई 2004/01 अप्रैल 2004\*

बीएचएम चंचल सिंह (सं. 14474712एफ अब जेसी-267265ए), 18 अगस्त 2004/09 अप्रैल 2004\*

बीएचएम के वेलसोवम (सं. 14356335एफ अब जेसी-266766ए), 27 जुलाई 2004/10 जून 2004\*

हवलदार राजन जी (सं. 15109158एल अब जेसी-267267एल), 27 जुलाई 2004/30 जून 2004\*

बीएचएम बलजीत सिंह (सं. 14345667एच अब जेसी-267268एन), 07 अगस्त 2004/01 जुलाई 2004\*

हवलदार आनंद कुमार तिवारी (सं. 14364253एल अब जेसी-267269डब्ल्यू), 04 अक्टूबर 2004/06 जुलाई 2004\*

हवलदार राम नाथ पाण्डे (सं. 14469216डब्ल्यू अब जेसी-266270एल), 29 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004\*

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 14366511वाई अब जेसी-267271एन), 03 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004\*

हवलदार लखन लाल (सं. 14486396ए अब जेसी-267272डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004

हवलदार गया प्रसाद (सं. 14358725ए अब जेसी-267273वाई), 01 अगस्त 2004

बीएचएम दिनेश प्रसाद सिंह (सं. 14468339डब्ल्यू अब जेसी-267274एफ), 01 अगस्त 2004

हवलदार सर्वेश कुमार (सं. 14486489पी अब जेसी-267275के), 12 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004\*

हवलदार एस जवाहर (सं. 14487085वाई अब जेसी-267576एम), 01 सितम्बर 2004

\*ज्येष्ठता प्राप्त

कोर ऑफ सिगनल्स

नायब सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार राम विलास पाल (सं. 14254154ए अब जेसी-376002एक्स), 01 जनवरी 2005

हवलदार राणा प्रताप सिंह (सं. 15371079एच अब जेसी-376004एच), 01 जनवरी 2005

हवलदार सुमेर (सं. 15358733पी अब जेसी-376008वाई), 01 जनवरी 2005

हवलदार रघुनाथन पी ए (सं. 15360744ए अब जेसी-376010डब्ल्यू), 25 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार श्री कान्त (सं. 14269148के अब जेसी-376011वाई), 01 जनवरी 2005

हवलदार शाजी के (सं. 15360508वाई अब जेसी-376012एफ), 01 जनवरी 2005

हवलदार आर एस सिंह यादव (सं. 15356957डब्ल्यू अब जेसी-376013के), 01 जनवरी 2005

हवलदार पिशावर सिंह (सं. 15364049एच अब जेसी-376014एम), 01 जनवरी 2005

हवलदार महेन्द्र प्रताप (सं. 15366862के अब जेसी-376016एक्स),  
01 जनवरी 2005

हवलदार ओम प्रकाश मालव (सं. 15362422वाई अब  
जेसी-376017ए), 01 जनवरी 2005

हवलदार दो भदा रवीन्द्रा के आर (सं. 15363852पी अब  
जेसी-376019एल), 01 जनवरी 2005

हवलदार राकेश कुमार (सं. 15374081एल अब जेसी-376020ए),  
01 जनवरी 2005

हवलदार पॉल सीई एम व्ही (सं. 15352956डब्ल्यू अब  
जेसी-376021एच), 01 जनवरी 2005

हवलदार नरेश कुमार (सं. 15363821पी अब जेसी-376022एल), 01  
जनवरी 2005

नायब सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार प्रकाश के जी (सं. 15366963एक्स अब जेसी-376023एन),  
01 जनवरी 2005

हवलदार एन सी मलिक (सं. 15369230एल अब जेसी-376025वाई),  
20 अप्रैल 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार मानिक कुमार मैती (सं. 15372066एक्स अब  
जेसी-376026एफ), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार (ओ पी साईफर) के रैंक में

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 14241102एल अब  
जेसी-375764वाई), 12 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार राम जियावन (सं. 14251054के अब जेसी-375799पी),  
01 फरवरी 2005

हवलदार वाई लाल बहादुर शास्त्री (सं. 14247048वाई अब  
जेसी-375800वाई), 12 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार ए के पाठक (सं. 14232831वाई अब जेसी-375801एफ),  
26 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार आनंद सिंह (सं. 14233955एन अब जेसी-375782एफ),  
01 मार्च 2005

हवलदार सतविन्दर सिंह (सं. 14251962एम अब जेसी-375845वाई),  
01 मार्च 2005

हवलदार राय सिंह (सं. 14246709एफ अब जेसी-375846एफ), 01  
मार्च 2005

हवलदार आर एस श्योरन (सं. 14236615डब्ल्यू अब  
जेसी-375847के), 01 मार्च 2005

हवलदार अनिल कुमार तिवारी (सं. 14248337ए अब  
जेसी-375848एम), 01 मार्च 2005

हवलदार मोहम्मद एन के (सं. 14252519एल अब जेसी-375849पी),  
01 मार्च 2005

हवलदार बृजेश कुमार (सं. 14251868एच अब जेसी-375850के),  
01 मार्च 2005

हवलदार राम करन (सं. 14252779डब्ल्यू अब जेसी-375851एम),  
03 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2005 से दी जाएगी)

हवलदार जंगबीर (सं. 14252719एफ अब जेसी-375852पी), 15  
मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2005 से दी जाएगी)

हवलदार सुमन कुमार (सं. 14253114एम अब जेसी-375853एक्स),  
01 मार्च 2005

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 14246216ए अब जेसी-375854ए), 01  
मार्च 2005

हवलदार कपाल सिंह (सं. 14248433पी अब जेसी-375917एक्स),  
01 अप्रैल 2005

हवलदार बृजबन्धु मोहन्ती (सं. 14243870एल अब जेसी-375918ए),  
01 अप्रैल 2005

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 14253271वाई अब जेसी-375919एच),  
01 अप्रैल 2005

हवलदार जिले सिंह (सं. 14253592डब्ल्यू अब जेसी-375920एक्स),  
01 अप्रैल 2005

हवलदार राम देव (सं. 14248844एन अब जेसी-375922एच), 01  
अप्रैल 2005

हवलदार मार्कण्डेय (सं. 14253925एक्स अब जेसी-376033एक्स),  
01 मई 2005

नायब सूबेदार (ओ पी स्पेशल) के रैंक में

हवलदार टी राजू (सं. 14255755एक्स अब जेसी-375715डब्ल्यू), 01  
नवम्बर 2004

हवलदार डी पद्मनाभन (सं. 14257407पी अब जेसी-375716वाई),  
01 नवम्बर 2004



हवलदार भास्कर जे (सं. 14255759एन अब जेसी-375733वाई), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार शक्ति राम (सं. 14255783के अब जेसी-375734एफ), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार संजय कुमार सिन्हा (सं. 14256081एक्स अब जेसी-375735के), 13 दिसम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी)

हवलदार भंवर सिंह (सं. 14256300एन अब जेसी-375736एम), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार विजय पाल सिंह (सं. 14256323पी अब जेसी-375737पी), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार मुख नाथ यादव (सं. 14258044एच अब जेसी-375738एक्स), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार काश्मीर सिंह (सं. 14254582वाई अब जेसी-375765एफ), 01 जनवरी 2005

हवलदार थॉमस जोसेफ (सं. 14259690वाई अब जेसी-375766के), 04 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार ए पी सिंह (सं. 14257705एल अब जेसी-375767के), 01 जनवरी 2005

हवलदार जगदेव सिंह (सं. 14256791पी अब जेसी-375768पी), 01 जनवरी 2005

हवलदार सुनील लाडोन (सं. 14246531डब्ल्यू अब जेसी-375781वाई), 01 जनवरी 2005

हवलदार काशीनाथ राम (सं. 14245638वाई अब जेसी-375909वाई), 24 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार दधीवाल सिंह (सं. 14243902एच अब जेसी-375803एम), 10 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार राधास्वामी प्रधान (सं. 14253992एच अब जेसी-375804पी), 01 फरवरी 2005

हवलदार धन्ना सिंह (सं. 14249054एल अब जेसी-375805एक्स), 01 फरवरी 2005

हवलदार माधव पान्डेय (सं. 14246975ए अब जेसी-375806ए), 01 फरवरी 2005

हवलदार सुदर्शन कुमार (सं. 14253960ए अब जेसी-375807एच), 05 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार जगदेव सिंह (सं. 13958189के अब जेसी-375809एन), 18 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार आनंद सिंह (सं. 14254985वाई अब जेसी-375810एच), 16 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार नैन सिंह कोतवाल (सं. 14246436के अब जेसी-375855एच), 01 मार्च 2005

हवलदार कमलाकान्त तिवारी (सं. 14257291के अब जेसी-375856एल), 12 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाएगी)

हवलदार ओंकार शर्मा (सं. 14256014एम अब जेसी-375859वाई), 01 मार्च 2005

हवलदार टी एन त्रिपाठी (सं. 14256479एम अब जेसी-375860एन), 01 मार्च 2005

हवलदार ए बल्लभ पान्डेय (सं. 14256602ए अब जेसी-375861डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

हवलदार माम चन्द यादव (सं. 14255645एच अब जेसी-375862वाई), 01 मार्च 2005

हवलदार सरवन सिंह (सं. 14257642एन अब जेसी-375863एफ), 01 मार्च 2005

हवलदार रघुपाल सिंह (सं. 14257535एम अब जेसी-375864के), 01 मार्च 2005

हवलदार आर कार्तिकेयन (सं. 14257913ए अब जेसी-375865एम), 01 मार्च 2005

हवलदार जोसेफ राज डी (सं. 14257947एन अब जेसी-375866पी), 01 मार्च 2005

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 14253071एच अब जेसी-375867एक्स), 01 मार्च 2005

हवलदार कृष्णानंद (सं. 14258236ए अब जेसी-375868ए), 01 मार्च 2005

हवलदार सीता राम (सं. 14252048एच अब जेसी-375910एन), 03 मार्च 2005	हवलदार बी एन चौबे (सं. 14256225एक्स अब जेसी-375946एम), 01 अप्रैल 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाएगी)	हवलदार अमर सिंह (सं. 14259320एम अब जेसी-375947पी), 20 अप्रैल 2005
हवलदार सुभाष चन्दर (सं. 14256131एक्स अब जेसी-375925डब्ल्यू), 04 अप्रैल 2005	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाएगी)
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाएगी)	हवलदार सुरेश पाल (सं. 14254635एम अब जेसी-375949ए), 01 अप्रैल 2005
हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 14258676एन अब जेसी-375927एफ), 01 अप्रैल 2005	हवलदार दुर्योधन मोहाराना (सं. 14256189पी अब जेसी-375952ए), 01 अप्रैल 2005
हवलदार सुरेन्द्र मोहन (सं. 14255979एक्स अब जेसी-375928के), 09 अप्रैल 2005	हवलदार ओमनाकुट्टन पिल्लई (सं. 14259645ए अब जेसी-375953एच), 01 अप्रैल 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाएगी)	हवलदार पत राम यादव (सं. 14260240एफ अब जेसी-375955एन), 01 अप्रैल 2005
हवलदार जाधव विलास एस (सं. 14258758डब्ल्यू अब जेसी-375929एम), 01 अप्रैल 2005	हवलदार हरिओम सिंह (सं. 14251909एफ अब जेसी-375956डब्ल्यू), 06 अप्रैल 2005
हवलदार रामोतार यादव (सं. 14259087के अब जेसी-375930एफ), 01 अप्रैल 2005	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाएगी)
हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 14255844डब्ल्यू अब जेसी-375932एम), 01 अप्रैल 2005	हवलदार एस थम्बीराज (सं. 14259599डब्ल्यू अब जेसी-375957वाई), 01 अप्रैल 2005
हवलदार सत्य नारायण (सं. 14258886एन अब जेसी-375933पी), 01 अप्रैल 2005	हवलदार एन कुमारन (सं. 14260229एच अब जेसी-375958एफ), 01 अप्रैल 2005
हवलदार एस पी सिंह (सं. 14259145एच अब जेसी-375934एक्स), 01 अप्रैल 2005	हवलदार आर एन भुजबल (सं. 14255245डब्ल्यू अब जेसी-375959के), 01 अप्रैल 2005
हवलदार जी अनिल श्रीपति (सं. 14259416पी अब जेसी-375936एच), 01 अप्रैल 2005	नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में
हवलदार उमेश सिंह (सं. 14259164एन अब जेसी-375937एल), 01 अप्रैल 2005	हवलदार देव चन्द (सं. 14250256वाई अब जेसी-375769एक्स), 01 जनवरी 2005
हवलदार रामाश्रय तिवारी (सं. 14259229डब्ल्यू अब जेसी-375938एन), 01 अप्रैल 2005	हवलदार राधेश्याम पाल (सं. 14250906एफ अब जेसी-375770एम), 01 जनवरी 2005*
हवलदार सुमेर सिंह (सं. 14254414ए अब जेसी-375939डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005	हवलदार प्रेम सिंह (सं. 14245823एम अब जेसी-375869एच), 14 मार्च 2005
हवलदार देव राज ठाकुर (सं. 14257638एल अब जेसी-375941एन), 13 अप्रैल 2005	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाएगी)	हवलदार नीलकमल अधिकारी (सं. 14252056एफ अब जेसी-375870एक्स), 07 मार्च 2005
हवलदार आर टी वर्मा (सं. 14249213एक्स अब जेसी-375943वाई), 01 अप्रैल 2005	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)
हवलदार बलबीर सिंह (सं. 14250449वाई अब जेसी-375945के), 01 अप्रैल 2005	हवलदार हाकिम सिंह (सं. 14246382एन अब जेसी-375871ए), 01 मार्च 2005

हवलदार सुबोध कुमार सिंह (सं. 14249669एम अब जेसी-375872एच), 01 मार्च 2005

हवलदार राम प्रवेश यादव (सं. 14251784पी अब जेसी-375873एल), 06 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

हवलदार परशुराम साहू (सं. 14255242एच अब जेसी-375860वाई), 01 अप्रैल 2005

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 14256404पी अब जेसी-375961एफ), 01 अप्रैल 2005

हवलदार एन साधियामूर्ति (सं. 14244407डब्ल्यू अब जेसी-375962के), 01 अप्रैल 2005

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं. 14246328एफ अब जेसी-375963एम), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार भगवान बोकश सिंह (सं. 14242674वाई अब जेसी-375783के), 15 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार किशन किशोर (सं. 14255642पी अब जेसी-375964पी), 01 अप्रैल 2005

हवलदार एच के इदाधिल (सं. 14253192के अब जेसी-375966ए), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार सत्यवान सिंह (सं. 14248223पी अब जेसी-375622एफ), 09 अगस्त 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 14248590एफ अब जेसी-375626एक्स), 01 अगस्त 2004

हवलदार के जी चक्राबोर्ती (सं. 14236710एच अब जेसी-375763डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार धीरेन्द्र कुमार (सं. 14248917पी अब जेसी-375690पी), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार व्ही बी सिंह (सं. 14230981के अब जेसी-375707एक्स), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार ऋषि राम शर्मा (सं. 14243732के अब जेसी-375721के), 01 नवम्बर 2004

हवलदार दीप नारायण शर्मा (सं. 14241813एल अब जेसी-375726एच), 01 नवम्बर 2004

हवलदार अरविन्द कुमार (सं. 14244091पी अब जेसी-374743एच), 02 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार मोहम्मद नूरमोहम्मद अली (सं. 14247825डब्ल्यू अब जेसी-375744एल), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार अमरीक सिंह (सं. 14249215एच अब जेसी-375747वाई), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 14249298वाई अब जेसी-375748एफ), 01 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार वेद प्रकाश (सं. 14249701ए अब जेसी-375750वाई), 22 दिसम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सरबदेव सिंह (सं. 14250171एच अब जेसी-375751एफ), 11 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राम प्रकाश (सं. 14250439पी अब जेसी-375753एम), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार दिनेश कुमार प्रसाद (सं. 14245557वाई अब जेसी-375759एन), 11 दिसम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार चम्पा राम नायक (सं. 14248705के अब जेसी-375772एक्स), 01 जनवरी 2005

हवलदार बीरेन्द्र कुमार सिंह (सं. 14243028एन अब जेसी-375773ए), 01 जनवरी 2005

हवलदार छोटन महतो (सं. 14246325एम अब जेसी-375774एच), 01 जनवरी 2005

हवलदार आनंद पाल (सं. 14247523के अब जेसी-375775एम), 01 जनवरी 2005

हवलदार राम बहादुर (सं. 14247876के अब जेसी-375776एन), 01 जनवरी 2005

हवलदार रबीन्द्र प्रसाद (सं. 14247349एच अब जेसी-375777डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005

हवलदार लल्लन कुमार राय (सं. 14271266डब्ल्यू अब जेसी-375778वाई), 01 जनवरी 2005

हवलदार राम बचन (सं. 14231093एफ अब जेसी-375779एफ), 01 जनवरी 2005	हवलदार मोहिन्दर पाल सिंह (सं. 14246500डब्ल्यू अब जेसी-375795डब्ल्यू), 23 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)
हवलदार राज देव वर्मा (सं. 14243972एफ अब जेसी-375780डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005	हवलदार राम मोहन सिंह (सं. 14242213पी अब जेसी-375796एफ), 20 मार्च 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)
हवलदार बी पी सिंह (सं. 14239390के अब जेसी-375785पी), 28 मार्च 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)	हवलदार बाबू लाल (सं. 14239002एफ अब जेसी-375797के), 26 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)
हवलदार श्री भगवान पांडेय (सं. 14240124एक्स अब जेसी-375786एक्स), 20 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)	हवलदार टेक चन्द (सं. 14238460एल अब जेसी-375798एम), 03 मार्च 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)
हवलदार बसगित सिंह (सं. 14243016वाई अब जेसी-375787ए), 04 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)	हवलदार रंगलाल सिंह (सं. 14236478एच अब जेसी-375812एन), 27 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)
हवलदार हेम राज (सं. 14246292एम अब जेसी-375788एच), 18 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)	हवलदार दर्शन कुमार (सं. 14239823डब्ल्यू अब जेसी-375813डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)
हवलदार के पी सिंह (सं. 14245561एफ अब जेसी-375789एल), 01 जनवरी 2005	हवलदार जोगिन्दर पाल (सं. 14242387पी अब जेसी-375814वाई), 07 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)
हवलदार एस के कौशिक (सं. 14246706एन अब जेसी-375790ए), 09 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)	हवलदार रूमेल सिंह (सं. 14242733ए अब जेसी-375815एफ), 01 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)
हवलदार राज कुमार राय (सं. 14243923वाई अब जेसी-375791एच), 12 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)	हवलदार भगवत दयाल (सं. 14249094एम अब जेसी-375816के), 01 मार्च 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)
हवलदार एस आर जामपानी (सं. 14245435पी अब जेसी-375792एल), 01 जनवरी 2005	हवलदार अवध लाल प्रसाद (सं. 14270482एक्स अब जेसी-375817एम), 07 मार्च 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)
हवलदार रंजन कुमार दास (सं. 14245535ए अब जेसी-375793एन), 10 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)	हवलदार गंगा प्रसाद (सं. 14247728वाई अब जेसी-375818पी), 15 मार्च 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)
हवलदार थंडा राम अधिकारी (सं. 14243344एम अब जेसी-375794डब्ल्यू), 04 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)	

हवलदार राम प्रकाश (सं. 14250385वाई अब जेसी-375915एम),  
01 अप्रैल 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार शिवकान्त ओझा (सं. 14250904डब्ल्यू अब  
जेसी-375819एक्स), 28 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मायाधर बेहेरा (सं. 14245493वाई अब जेसी-375820एम),  
01 फरवरी 2005

हवलदार बलवंत सिंह (सं. 14246404एफ अब जेसी-375822एक्स),  
01 फरवरी 2005

हवलदार गुलजार सिंह (सं. 14245884के अब जेसी-375823ए), 01  
फरवरी 2005

हवलदार अलख नारायण (सं. 14248677एच अब जेसी-375824एच),  
14 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार राम बाबू सिंह (सं. 14231098ए अब जेसी-375825एल),  
15 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार मधुसूदन के (सं. 14249071एल अब जेसी-375826एन),  
01 फरवरी 2005

हवलदार राम विनोद सिंह (सं. 14249862एच अब  
जेसी-375827डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

हवलदार राम सिंह दाहिया (सं. 14249719डब्ल्यू अब  
जेसी-375828वाई), 21 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार आनंद सिंह बिष्ट (सं. 14249537एच अब  
जेसी-375829एफ), 01 फरवरी 2005

हवलदार गोरख नाथ (सं. 14270207एक्स अब जेसी-375830डब्ल्यू),  
01 फरवरी 2005

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 14248689एक्स अब जेसी-375831वाई),  
01 फरवरी 2005

हवलदार परमेश्वर तिवारी (सं. 14245440ए अब जेसी-375832एफ),  
19 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार रबीन्द्रन पी के (सं. 14245630एम अब जेसी-375833के),  
08 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 11246511एच अब जेसी-375834एम),  
08 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार ए एन प्रसाद कुमार (सं. 14246808के अब  
जेसी-375835पी), 01 फरवरी 2005

हवलदार धरमबीर सिंह (सं. 14246463एन अब जेसी-375836एक्स),  
01 फरवरी 2005

हवलदार अशोक कुमार (सं. 14248761एच अब जेसी-375837ए),  
01 फरवरी 2005

हवलदार सहदेव सिंह (सं. 14248932के अब जेसी-375838एच), 01  
फरवरी 2005

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 14239535के अब जेसी-375839एल),  
01 फरवरी 2005

एम एम सिंह  
अवर सचिव

-----

सं. 406, दिनांक 18 जुलाई 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-418339के), 29 अप्रैल 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार धुपा यादव (जेसी-419252पी), 22 जनवरी 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लछमन सिंह (जेसी-419558एक्स), 21 मई 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार खोकन चद्रा राय (जेसी-419346एम), 01 जनवरी  
2005

नायब सूबेदार किशोर सिंह (जेसी-419438वाई), 21 मार्च 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुरेन्द्रा सिंह (जेसी-419515एच), 09 मार्च 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रतन लाल (जेसी-419596एन), 09 मई 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार तीरथ राम (जेसी-419114एन), 10 मई 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पाटिल रामचन्द्रा भिकु (जेसी-419361एफ), 01 मई 2005

नायब सूबेदार बोधू राम (जेसी-419394एम), 01 मई 2005

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-419426के), 02 मई 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार संजय कुमार दुबे (जेसी-420136वाई), 19 फरवरी 2005

नायब सूबेदार गुरजोग सिंह (जेसी-420137एफ), 19 फरवरी 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जगन्नाथ प्रसाद (सं. 14903556एफ अब जेसी-420272पी), 23 अप्रैल 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अक्टूबर 2004 से दी जाती है।)

हवलदार प्रकाश सिंह (सं. 14906288एन अब जेसी-420273एक्स), 23 अप्रैल 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 दिसम्बर 2004 से दी जाती है।)

हवलदार राम निवास शर्मा (सं. 14907570एल अब जेसी-420274ए), 12 अप्रैल 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 दिसम्बर 2004 से दी जाती है।)

हवलदार होशियार सिंह जेठी (सं. 14907692पी अब जेसी-420275एच), 12 अप्रैल 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 दिसम्बर 2004 से दी जाती है।)

हवलदार हयात सिंह (सं. 14908416वाई अब जेसी-420276एल), 12 अप्रैल 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है।)

हवलदार स्वर्ण कुमार (सं. 14908085एच अब जेसी-420277एन), 20 अप्रैल 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है।)

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 14907170वाई अब जेसी-420278डब्ल्यू), 20 अप्रैल 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है।)

हवलदार पी इरुलप्पन (सं. 14904556एन अब जेसी-420279वाई), 07 अप्रैल 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है।)

हवलदार ओम सिंह (सं. 14908158के अब जेसी-420280एन), 15 अप्रैल 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है।)

हवलदार हरबन्स लाल (सं. 14908325पी अब जेसी-420281डब्ल्यू), 02 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है।)

कवचित कोर

स्थाई रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार सोमा सुन्दरन के (जेसी-237997एफ), 09 अगस्त 2004\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार उदय प्रताप (जेसी-238548वाई), 01 अगस्त 2004

नायब रिसालदार सत्यबीर सिंह (जेसी-238583पी), 01 अगस्त 2004

नायब रिसालदार वासुदेव सिंह (जेसी-238590एक्स), 01 अगस्त 2004

- नायब रिसालदार धर्म पाल (जेसी-238674एल), 01 अगस्त 2004
- नायब रिसालदार सुल्तान सिंह (जेसी-239012पी), 01 अगस्त 2004
- नायब रिसालदार जयन्त बेसबरुआ (जेसी-239144एच), 09 सितम्बर 2004\*
- \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है।)
- नायब रिसालदार जसवन्त सिंह (जेसी-239270पी), 19 अक्टूबर 2004\*
- \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है।)
- नायब रिसालदार अकबर काथट (जेसी-239342एन), 16 अगस्त 2004\*
- \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है।)
- नायब रिसालदार सत्यबीर सिंह मलिक (जेसी-239440पी), 16 अगस्त 2004\*
- \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है।)
- नायब रिसालदार झलमन सिंह (जेसी-239452एच), 10 अगस्त 2004\*
- \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है।)
- नायब रिसालदार मोहन राम बिश्नोई (जेसी-239447एक्स), 10 अगस्त 2004\*
- \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है।)
- नायब रिसालदार हीरा सिंह (जेसी-239430एक्स), 10 अगस्त 2004\*
- \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है।)
- नायब रिसालदार रणबीर सिंह (जेसी-239451ए), 16 अगस्त 2004\*
- \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है।)
- नायब रिसालदार सुदामा शर्मा (जेसी-239457एफ), 18 अगस्त 2004\*
- \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है।)
- नायब रिसालदार इंगोले रमेश बलीरमजी (जेसी-239673पी), 10 अगस्त 2004\*
- \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है।)
- नायब रिसालदार राजेन्द्रा सिंह (जेसी-237672एम), 10 अगस्त 2004\*
- \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है।)
- नायब रिसालदार बलविन्दर सिंह (जेसी-238280एम), 01 सितम्बर 2004
- नायब रिसालदार सुरेश चन्द्रा (जेसी-238815पी), 15 अक्टूबर 2004\*
- \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है।)
- नायब रिसालदार दलजीत सिंह (जेसी-239032एच), 01 सितम्बर 2004
- नायब रिसालदार मान सिंह राणा (जेसी-239154एम), 01 सितम्बर 2004
- नायब रिसालदार यशवन्त सिंह (जेसी-239179वाई), 16 नवम्बर 2004\*
- \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है।)
- नायब रिसालदार महेन्द्रा सिंह (जेसी-239677एल), 01 सितम्बर 2004
- नायब रिसालदार नर सिंह प्रसाद (जेसी-239675ए), 01 सितम्बर 2004
- नायब रिसालदार प्रेम नाथ (जेसी-239714एन), 01 सितम्बर 2004
- नायब रिसालदार कृष्णा पाल सिंह (जेसी-239903एक्स), 01 सितम्बर 2004
- नायब रिसालदार ओम प्रकाश (जेसी-238057एच), 01 अक्टूबर 2004
- नायब रिसालदार शिवजी यादव (जेसी-238588ए), 01 अक्टूबर 2004
- नायब रिसालदार शेर सिंह (जेसी-239456वाई), 01 अक्टूबर 2004
- नायब रिसालदार मल्लाबोलु सत्यनारायणा (जेसी-239605पी), 01 अक्टूबर 2004
- नायब रिसालदार लाभ सिंह (जेसी-239668के), 31 अक्टूबर 2004\*
- \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है।)
- नायब रिसालदार अब्दुल समद चौधरी (जेसी-239716वाई), 01 अक्टूबर 2004
- नायब रिसालदार राजन थॉमस के ई (जेसी-240039वाई), 04 अक्टूबर 2004\*
- \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है।)
- नायब रिसालदार जय सिंह (जेसी-238925के), 10 नवम्बर 2004\*
- \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार आर जनार्दनन (जेसी-239255ए), 01 नवम्बर 2004

नायब रिसालदार राजा राम पाण्डेय (जेसी-239531एक्स), 13 जनवरी 2005\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार प्रताप सिंह (जेसी-238816के), 20 जनवरी 2005\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 नवम्बर 2004 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार निगमपु कुमार (जेसी-239862वाई), 01 दिसम्बर 2004

नायब रिसालदार ध्रुवदेव सिंह राणा (जेसी-240141एफ), 26 फरवरी 2005\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार अजीत सिंह (जेसी-239332के), 02 मार्च 2005\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार शंकर सिंह (जेसी-239494पी), 16 जनवरी 2005\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-239752के), 17 जनवरी 2005\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार मोहम्मद जनुद्दीन (जेसी-239838एच), 10 मार्च 2005\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार सोने लाल (जेसी-238824डब्ल्यू), 04 मई 2005\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार बचन लाल (जेसी-238745एफ), 01 फरवरी 2005

नायब रिसालदार एम राम कुमार (जेसी-239034एन), 18 फरवरी 2005\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार राम भज (जेसी-239527पी), 28 फरवरी 2005\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार हर किशन कन्ही (जेसी-238546ए), 01 फरवरी 2005

नायब रिसालदार लोगेन्द्रा वासुमता (जेसी-239773ए), 23 मार्च 2005\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार सीता राम शर्मा (जेसी-239928के), 06 मार्च 2005\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार हरमीत सिंह (सं. 1072159एक्स अब जेसी-241249एल), 14 अप्रैल 2005\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है।)

दफादार एस जॉनसन (सं. 1068447एम अब जेसी-241257के), 21 अप्रैल 2005\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है।)

दफादार दिबाकर प्रधान (सं. 1068509एफ अब जेसी-241258एम), 22 अप्रैल 2005\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है।)

दफादार होशियार सिंह (सं. 1071139एक्स अब जेसी-241261एम), 20 अप्रैल 2005\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मार्च 2005 से दी जाती है।)

दफादार तेज भान शर्मा (सं. 1074119पी अब जेसी-241262पी), 10 अप्रैल 2005\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मार्च 2005 से दी जाती है।)

दफादार रघुनाथ सिंह (सं. 1070357के अब जेसी-241273एफ), 11 अप्रैल 2005\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है।)

दफादार प्रेम नाथ भारती (सं. 1070473एम अब जेसी-241274के), 11 अप्रैल 2005\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है।)

दफादार हनुमन्त प्रसाद (सं. 1070301एक्स अब जेसी-241275एम), 11 अप्रैल 2005\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है।)



दफादार राम प्रवेश सिंह (सं. 1075033एच अब जेसी-241276पी),  
21 अप्रैल 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 05 नवम्बर 2004 से दी जाती है।)

दफादार प्रभाकरन कजुम गोडी (सं. 1074347एक्स अब  
जेसी-241277एक्स), 13 मई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 30 नवम्बर 2004 से दी जाती है।)

दफादार श्रीकांत गिरी (सं. 1075086एफ अब जेसी-241280एक्स),  
21 अप्रैल 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है।)

दफादार पाटिल दादासाहेब रामचन्द्र (सं. 1070528एल अब  
जेसी-241283ए), 14 अप्रैल 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 17 मार्च 2005 से दी जाती है।)

दफादार ब्रज मोहन सिंह (सं. 1074859के अब जेसी-241284एन),  
11 अप्रैल 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 20 मार्च 2005 से दी जाती है।)

दफादार दरीगा सिंह (सं. 1073361एक्स अब जेसी-241285डब्ल्यू),  
07 अप्रैल 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है।)

दफादार किशन सिंह भदौरिया (सं. 1077116एम अब  
जेसी-241291के), 05 मई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है।)

दफादार मोहन सिंह (सं. 1071233एफ अब जेसी-241299डब्ल्यू),  
02 मई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है।)

दफादार सत्या पाल (सं. 1074927एम अब जेसी-241300ए), 09  
मई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है।)

दफादार बीर सिंह (सं. 1072302वाई अब जेसी-241301एच), 01 मई  
2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 08 मार्च 2005 से दी जाती है।)

दफादार रणबीर सिंह (सं. 1075559पी अब जेसी-241302एल), 01  
मई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है।)

दफादार इन्दर सिंह (सं. 1077908एम अब जेसी-241304डब्ल्यू), 01  
मई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है।)

दफादार अनिल कुमार चौधरी (सं. 1074442एच अब  
जेसी-241306एफ), 01 मई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है।)

दफादार अरुण कुमार वर्मा (सं. 1068229एन अब जेसी-241307के),  
04 मई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 09 अप्रैल 2005 से दी जाती है।)

दफादार छोटु राम चौधरी (सं. 1075241एक्स अब जेसी-241308एम),  
28 अप्रैल 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2005 से दी जाती है।)

दफादार धर्मपाल (सं. 1076639वाई अब जेसी-241309एफ), 01  
मई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 15 अप्रैल 2005 से दी जाती है।)

दफादार दिवान चन्द (सं. 1070658एन अब जेसी-241310के), 01  
मई 2005

दफादार राम चन्द्रा तुकाराम खाडे (सं. 1074403एल अब  
जेसी-241311एम), 01 मई 2005

दफादार मुखतार सिंह (सं. 1079432एक्स अब जेसी-241313एक्स),  
01 मई 2005

दफादार कुलविन्दर सिंह (सं. 1079630पी अब जेसी-241314ए), 01  
मई 2005

दफादार बसवन्तप्पा पाटिल (सं. 1069948वाई अब  
जेसी-241316एल), 01 मई 2005

दफादार अमरीक सिंह (सं. 1078635एफ अब जेसी-241317एन),  
01 मई 2005

गार्डस ब्रिगेड

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार/डाइवर राम कुमार शर्मा (सं. 13688595ए अब  
जेसी-403720ए), 16 अप्रैल 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी।)

हवलदार गुलाब सिंह (सं. 13684479ए अब जेसी-403721एच), 17 मार्च 2005*	हवलदार पूरना चन्द्रा रे (सं. 13685946वाई अब जेसी-403732पी), 10 मई 2005*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी।)	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 मार्च 2005 से दी जायेगी।)
हवलदार दिवान सिंह (सं. 13686067एक्स अब जेसी-403703ए), 02 फरवरी 2005*	हवलदार/गनर पर्श राम सिंह तोमर (सं. 13689558वाई अब जेसी-403733एक्स), 13 मार्च 2005
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 सितम्बर 2004 से दी जायेगी।)	हवलदार/गनर अनिल कुमार के वी (सं. 13690711डब्ल्यू अब जेसी-403726एफ), 21 मार्च 2005
हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 13682396डब्ल्यू अब जेसी-403638एल), 17 अक्तूबर 2004*	हवलदार सुरेश कुमार (सं. 13685403एम अब जेसी-403727के), 01 अप्रैल 2005
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 सितम्बर 2004 से दी जायेगी।)	हवलदार इन्द्रजीत सिंह चहल (सं. 13687574एक्स अब जेसी-403728एम), 01 अप्रैल 2005
हवलदार नारायण सिंह (सं. 13682556एल अब जेसी-403722एल), 01 अप्रैल 2005*	हवलदार/गनर नेत्र पाल (सं. 13690283एच अब जेसी-403729पी), 28 अप्रैल 2005*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्तूबर 2004 से दी जायेगी।)	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी।)
हवलदार/गनर सर्वेश कुमार (सं. 13688413एफ अब जेसी-403723एन), 28 मार्च 2005*	हवलदार लबन्या कुमार रे (सं. 13685965के अब जेसी-403735एच), 16 मई 2005*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी।)	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी।)
हवलदार/गनर राजिन्द्र सिंह (सं. 13685917के अब जेसी-403730के), 01 जनवरी 2005	हवलदार/ड्राइवर कैलाश चन्द यादव (सं. 13688740एम अब जेसी-403734ए), 21 अप्रैल 2005*
हवलदार शिव सिंह (सं. 13682739एफ अब जेसी-403704एच), 25 फरवरी 2005*	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी।)
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जनवरी 2005 से दी जायेगी।)	हवलदार नागेन्द्रा सिंह (सं. 13688777एन अब जेसी-403736एल), 12 मई 2005*
हवलदार पुष्कर सिंह (सं. 13684233एफ अब जेसी-403724डब्ल्यू), 09 मार्च 2005*	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अप्रैल 2005 से दी जायेगी।)
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी।)	हवलदार मुख्त्यार सिंह (सं. 13683704एक्स अब जेसी-403737एन), 01 मई 2005*
हवलदार धर्मवीर सिंह (सं. 13683463एच अब जेसी-403731एम), 24 फरवरी 2005	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अप्रैल 2005 से दी जायेगी।)
हवलदार/ड्राइवर डी रामा स्वामी (सं. 13689985पी अब जेसी-403705एल), 01 मार्च 2005	हवलदार/ड्राइवर रामजीत सिंह (सं. 13685343एच अब जेसी-403738डब्ल्यू), 01 मई 2005
हवलदार गणेश सोनोवाल (सं. 13684678एन अब जेसी-403725वाई), 20 अप्रैल 2005*	नायब सूबेदार (म्युजिशियन) के रैंक में
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 मार्च 2005 से दी जायेगी।)	हवलदार/म्युजिशियन ललित चन्द्रा नियोग (सं. 13682901एन अब जेसी-403689वाई), 14 दिसम्बर 2004*
	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अगस्त 2004 से दी जायेगी।)

## राष्ट्रपति के अंगरक्षक

नायब रिसालदार क्लर्क जी डी के रैंक में

दफादार क्लर्क जी डी रतन सिंह (सं. 13700363डब्ल्यू अब जेसी-235041एम), 13 जून 2005

नायब रिसालदार के रैंक में आर व्यू एम डी

पृथ्वी सिंह (सं. 13700391एच अब जेसी-235040के), 01 जून 2005

जोस थोमस,  
अवर सचिव

संख्या 407, दिनांक 14 जुलाई 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदान्तरितियां करते हैं--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार कृष्णन एम वी (जेसी-165469वाई), 01 जनवरी 2005

सूबेदार राधाकृष्णन नायर के एन (जेसी-133509एफ), 01 फरवरी 2005

सूबेदार फते सिंह नेगी (जेसी-172581एन), 01 मार्च 2005

सूबेदार नन्दजी सिंह (जेसी-169430के), 01 मार्च 2005

सूबेदार ओंकार चन्द (जेसी-175836एन), 01 मार्च 2005

स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार पूरन मल (जेसी-840654एन), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार सिया राम (जेसी-840679ए), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार कृष्ण सिंह (जेसी-840673वाई), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार हरि राम (जेसी-840692के), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार जगपति चौहान (जेसी-840685एन), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-840693एम), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार राजपाल सिंह (जेसी-840686डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार भूजबाबू सिंधा (जेसी-840694पी), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार मुन्ना लाल (जेसी-840695एक्स), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार हरपाल सिंह (जेसी-840696ए), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार कुट्टन एम (जेसी-840741एम), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार राजनारायन सिंह (जेसी-840697एच), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार अमरनाथ सिंह (जेसी-840700एक्स), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार उमीयलन इ (जेसी-840753डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार सन्तोष कुमार (जेसी-840725के), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार इशाम सिंह (जेसी-840726एम), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार भ्यूराज सिंह रावत (जेसी-167216एच), 01 मार्च 2005

स्थाई सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार/लिपिक शशीधरा कूरूप सी (जेसी-172464एच), 04 मार्च 2005

स्थाई सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार/लिपिक बनवारी लाल (जेसी-840645एम), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार/लिपिक एम एन वेनूगोपालन नायर (जेसी-840621एच), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार/लिपिक जय सिंह (जेसी-840661के), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार/लिपिक बाबू एम के (जेसी-840707एफ), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार/लिपिक श्री भगवान सिंह (जेसी-840708के), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार/लिपिक डी सुन्दरेशन (जेसी-840709एम), 01 मार्च 2005

टी. के. एम. पिल्लै  
अवर सचिव

संख्या 408, दिनांक 15 जुलाई 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदान्तरितियां करते हैं--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

महार रेजिमेंट

सूबेदार मेजर धर्म शिक्षक के रैंक में

सूबेदार/धर्म शिक्षक लीलाधर पाण्डे (जेसी-98749डब्ल्यू), 07 जनवरी 2005\*

\*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005)

सूबेदार/धर्म शिक्षक जगदीश प्रसाद प्यासी (जेसी-152335एफ), 01 मार्च 2005

पैराशूट रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) लवकेश प्रसाद गोतम (जेसी-412136के), 01 दिसम्बर 2004

विशेष सूची

सिख रेजीमेंट

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

रन्धीर सिंह (जेसी-499352एल), 25 सितम्बर 2004

कुलदीप सिंह (जेसी-499443पी), 11 दिसम्बर 2004

नायक गुरचरण सिंह (सं. 3394431एफ अब जेसी-499495एल), 11 दिसम्बर 2004

सेना पुलिस कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार हरभजन सिंह (जेसी-215433वाई), 11 जनवरी 2004 \*

सूबेदार लालता (जेसी-216272एन), 01 जनवरी 2004

सूबेदार उन्नी कृष्णन पी जी (जेसी-216275एफ), 01 फरवरी 2004

सूबेदार पुनिया बक्सला (जेसी-216281पी), 01 फरवरी 2004

सूबेदार लोक सत्यम रेड्डी (जेसी-216288वाई), 01 फरवरी 2004

सूबेदार दिनेश चन्द (जेसी-219966वाई), 20 फरवरी 2004#

सूबेदार नरायण दत्त मलासी (जेसी-818022एच), 01 जुलाई 2004

सूबेदार हरी दासन इ पी (जेसी-818026वाई), 12 जुलाई 2004\$

सूबेदार शीश पाल सिंह (जेसी-818029एम), 02 अगस्त 2004%

सूबेदार सुरेश चन्द्र साहा (जेसी-818171डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-818172वाई), 16 नवम्बर 2004^

सूबेदार धरमवीर सिंह (जेसी-818178ए), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार सुख चैन सिंह (जेसी-818224के), 12 जनवरी 2005&

सूबेदार भूपेन्द्र सिंह (जेसी-818260पी), 06 जनवरी 2005

सूबेदार मोहन अप्पासाहेब भोसले (जेसी-818274पी), 26 जनवरी 2005&

सूबेदार जगनारायण सिंह (जेसी-818281एल), 01 मार्च 2005

सूबेदार बलदेव राज शर्मा (जेसी-818312ए), 09 अप्रैल 2005+

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन तथा भत्तों पद प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

#(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन तथा भत्तों पद प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

\$(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन तथा भत्तों पद प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

%(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन तथा भत्तों पद प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाएगी)

^(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन तथा भत्तों पद प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाएगी)

&(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन तथा भत्तों पद प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाएगी)

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन तथा भत्तों पद प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर (म्युजिसियन) के रैंक में

सूबेदार अब्दुल रशीद एस (जेसी-818294एच), 06 मार्च 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन तथा भत्तों पद प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाएगी)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार दल्ची सोपन पंढारीनाथ (जेसी-818527वाई), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार श्यामदेव गोस्वामी (जेसी-818528एफ), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार छोटे लाल राम (जेसी-818529के), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-818530वाई), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार विनय कुमार सिंह (जेसी-818531एफ), 17 जनवरी 2004@

नायब सूबेदार राम अक्वल झा (जेसी-818532के), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार इन्द्रजीत यादव (जेसी-818533एम), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार मदन लाल यादव (जेसी-818535एक्स), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार हीरा सिंह (जेसी-818538एल), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-818540एच), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार कुन्दलेश प्रसाद गौतम (जेसी-818556एन), 03 फरवरी 2004#

नायब सूबेदार देवी दत्त तिवारी (जेसी-818541एल), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार शिव मुनी सिंह (जेसी-818542एन), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार नरेन्द्र यशवंत चवन (जेसी-818543डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार लालजी पाण्डे (जेसी-818545एफ), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार महातीम दुबे (जेसी-818546के), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार राम कनवर (जेसी-818552एक्स), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार नरेन्द्र कुमार (जेसी-818553ए), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार राम पाल सिंह (जेसी-818554एच), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-818555एल), 03 फरवरी 2004#

नायब सूबेदार कृष्णा सिंह (जेसी-818558वाई), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार विठल (जेसी-818559एफ), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार जय कुमार सरावत (जेसी-818560डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार हरपाल सिंह (जेसी-818561वाई), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार जुगती राम (जेसी-818563के), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार बलवान सिंह (जेसी-818564एम), 01 फरवरी 2004  
 नायब सूबेदार कृष्ण लाल माहिया (जेसी-818565पी), 17 फरवरी 2004#  
 नायब सूबेदार देब नाथ बिश्वास (जेसी-818566एक्स), 4 फरवरी 2004##  
 नायब सूबेदार राम अवतार (जेसी-818567ए), 20 फरवरी 2004###  
 नायब सूबेदार पटेल नारायण भाई मगन भाई (जेसी-818568एच), 01 मार्च 2004  
 नायब सूबेदार जशवंत सिंह खाती (जेसी-818575वाई), 01 मार्च 2004  
 नायब सूबेदार अरूण कुमार सिंह (जेसी-818576एफ), 13 मार्च 2004\$  
 नायब सूबेदार अरूण कुमार सिंह (जेसी-818577के), 01 मार्च 2004  
 नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-818578एम), 01 मार्च 2004  
 नायब सूबेदार राज पाल सिंह (जेसी-818579पी), 01 मार्च 2004  
 नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह (जेसी-818580के), 01 अप्रैल 2004  
 नायब सूबेदार राम कुवर (जेसी-818584ए), 01 अप्रैल 2004  
 नायब सूबेदार रामायण यादव (जेसी-818585एच), 01 अप्रैल 2004  
 नायब सूबेदार सुबे सिंह (जेसी-818587एन), 01 अप्रैल 2004  
 नायब सूबेदार गुणेश्वर नाथा पाण्डये (जेसी-818588डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004  
 नायब सूबेदार हरलाल सिंह ढाका (जेसी-818590एन), 01 अप्रैल 2004  
 नायब सूबेदार दुर्गा सिंह (जेसी-818592वाई), 16 अप्रैल 2004%  
 नायब सूबेदार भोलानाथ चौधरी (जेसी-818594के), 01 अप्रैल 2004  
 नायब सूबेदार मुरलीधर प्रधान (जेसी-818597एक्स), 01 अप्रैल 2004  
 नायब सूबेदार काशी नाथ सिंह (जेसी-818599एच), 01 अप्रैल 2004  
 नायब सूबेदार फनिन्द्रा कुमार पाठक (जेसी-818600एम), 05 अप्रैल 2004%  
 नायब सूबेदार प्रकाशन एम (जेसी-818602एक्स), 01 अप्रैल 2004  
 नायब सूबेदार दया सिंह सहरावत (जेसी-818603ए), 01 अप्रैल 2004  
 नायब सूबेदार रणवीर सिंह नरवाल (जेसी-818604एच), 01 अप्रैल 2004  
 नायब सूबेदार चकधर हाती (जेसी-818605एल), 01 अप्रैल 2004  
 नायब सूबेदार भगवान दास (जेसी-818606एन), 12 अप्रैल 2004%  
 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-818671एन), 01 मई 2004  
 नायब सूबेदार जितेन्द्र सिंह (जेसी-818607डब्ल्यू), 01 मई 2004  
 नायब सूबेदार अमरेन्द्र तिवारी (जेसी-818609एफ), 01 मई 2004

नायब सूबेदार अभय सिंह यादव (जेसी-818610डब्ल्यू), 01 मई 2004  
 नायब सूबेदार पी जोय कुमार सिन्हा (जेसी-818611वाई), 21 जून 2004  
 नायब सूबेदार माधव प्रसाद सिंह (जेसी-818612एफ), 01 जुलाई 2004  
 नायब सूबेदार भुदेव सिंह (जेसी-818613के), 01 जुलाई 2004  
 नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-818614एम), 05 जुलाई 2004&  
 नायब सूबेदार दामबूरू दलाई (जेसी-818616एक्स), 02 अगस्त 2004\*  
 नायब सूबेदार पी एच बसना सिन्हा (जेसी-818617ए), 12 अगस्त 2004\*  
 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-818618एच), 01 अगस्त 2004  
 नायब सूबेदार धर्मपाल सिंह (जेसी-818619एल), 02 अगस्त 2004\*  
 नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-818620ए), 01 अगस्त 2004  
 नायब सूबेदार वताने अम्बादास भगवान राव (जेसी-818621एच), 01 अगस्त 2004  
 नायब सूबेदार पाटिल मानिक राम भीमा राव (जेसी-818622एल), 01 अगस्त 2004  
 नायब सूबेदार बास देव सिंह चौहान (जेसी-818623एन), 02 अगस्त 2004\*  
 नायब सूबेदार दया राम (जेसी-818624डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004  
 नायब सूबेदार राम कुमार शर्मा (जेसी-818625वाई), 01 अगस्त 2004  
 नायब सूबेदार सदानन्द सम्बारागी (जेसी-818626ए), 02 अगस्त 2004\*  
 नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-818627के), 02 अगस्त 2004\*  
 नायब सूबेदार कपूर सिंह (जेसी-818628एम), 02 अगस्त 2004\*  
 नायब सूबेदार श्री चन्द्रा (जेसी-818629पी), 01 अगस्त 2004  
 नायब सूबेदार सुधाकरन के पी (जेसी-818630के), 02 अगस्त 2004\*  
 नायब सूबेदार भागवत राय (जेसी-818631एम), 01 अगस्त 2004  
 नायब सूबेदार मोहिन्द्र लाल (जेसी-818632पी), 01 अगस्त 2004  
 नायब सूबेदार एस रेनासामी (जेसी-818633एक्स), 01 अगस्त 2004  
 नायब सूबेदार एस अनंदम (जेसी-818635एच), 16 अगस्त 2004\*  
 नायब सूबेदार पुरुषोत्तम यादव (जेसी-818636एल), 01 सितम्बर 2004  
 नायब सूबेदार संतोख सिंह (जेसी-818638डब्ल्यू), 16 सितम्बर 2004  
 नायब सूबेदार भोमाराव बिश्नोई (जेसी-818639वाई), 01 सितम्बर 2004  
 नायब सूबेदार हरिहर सिंह (जेसी-818640एन), 01 सितम्बर 2004  
 नायब सूबेदार भूपेन्द्र चन्द (जेसी-818641डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004  
 नायब सूबेदार रोहिताशवा (जेसी-818642वाई), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार दविजेन्द्र नाथ बर्मन (जेसी-818643एफ), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार भरत सिंह वर्मा (जेसी-818644के), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार वासुदेवन एम (जेसी-818645एम), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार निजाम हैदर खान (जेसी-818646पी), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार लीलाधर नाथ (जेसी-818647एक्स), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-818648ए), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह (जेसी-818649एच), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार महिपाल सिंह धयाल (जेसी-818650एक्स), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार मोहिन्द्र सिंह (जेसी-818651ए), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार भगवान दास तिवारी (जेसी-818652एच), 21 सितम्बर 2004+

नायब सूबेदार अरुण कुमार विश्वास (जेसी-818653एल), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार रामवीर सिंह (जेसी-818654एन), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार दीना नाथ पाण्डेय (जेसी-818655डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार करन सिंह भाउ (जेसी-818656वाई), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार राम नरेश त्रिपाठी (जेसी-818657एफ), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार शिव राज सिंह (जेसी-818658के), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार अपूर्वा कुमार भराली (जेसी-818659एम), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार लाल मनी (जेसी-818789पी), 29 दिसम्बर 2004++

नायब सूबेदार बंसोडे चन्द्र कान्त (जेसी-818660एफ), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार अवाले हनुमंत बालु (जेसी-818661के), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार शिव सिंह (जेसी-818662एम), 10 जनवरी 2005\*\*

नायब सूबेदार इन्दु मेधी (जेसी-818663पी), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार सूरज मल (जेसी-818664एक्स), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार रामा शंकर सिंह (जेसी-818665ए), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार सत्यनारायण शर्मा (जेसी-818666एफ), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार रवि नारायण माहापात्रा (जेसी-818668एन), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार अक्षय कुमार सिंह (जेसी-818669डब्ल्यू), 06 जनवरी 2005\*\*

नायब सूबेदार विनोद कुमार बदोला (जेसी-818670एल), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार एस बी पाण्डे गांव (जेसी-818672डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार हरी कृष्णा यादव (जेसी-818674एफ), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार सुशील कुमार (जेसी-818675के), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार दीना नाथ सिंह (जेसी-818676एम), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार चन्द्र मोरी (जेसी-818677पी), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार जशवंत सिंह (जेसी-818678एक्स), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार हरी ओम (जेसी-818680पी), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार दत्ता राम शर्मा (जेसी-818681एक्स), 03 जनवरी 2005\*\*

नायब सूबेदार रामकृत प्रसाद (जेसी-818682ए), 10 जनवरी 2005\*\*

नायब सूबेदार काला राम (जेसी-818683एच), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार कुबेर नाथ (जेसी-818684एल), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार राम नन्दन यादव (जेसी-818685एन), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार खगेश्वर मोहापात्रा (जेसी-818686डब्ल्यू), 17 जनवरी 2005\*\*

नायब सूबेदार रंजीत कुमार रॉय (जेसी-818687वाई), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार मुक्तीयार सिंह (जेसी-818781एच), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार मूल चन्द (जेसी-818688एफ), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार रामाकान्त यादव (जेसी-818691एफ), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार अमर कुमार सिंह (जेसी-818692के), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार राधा कृष्ण पाण्डेय (जेसी-818693एम), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार लक्ष्मी प्रसाद (जेसी-818695एक्स), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार राम प्रकाश सिंह (जेसी-818696ए), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार हेत राम (जेसी-818697एच), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार सतीश चन्द्र (जेसी-818698एल), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार भुवनेश्वर वैश्या (जेसी-818699एन), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार कामेश्वर सिंह (जेसी-818700एक्स), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार मो. मुबारक अली (जेसी-818701ए), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार भगत राम (जेसी-818704एन), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार मीर मोमताज अली (जेसी-818705डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार दिपेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-818706वाई), 07 जनवरी 2005\*\*

नायब सूबेदार निर्मल कुमार सिंह (जेसी-818764एच), 17 जनवरी 2005\*\*

नायब सूबेदार माने चन्द्र कान्त दादा (जेसी-818708के), 10 जनवरी 2005\*\*

नायब सूबेदार एस कोलांदेसू (जेसी-818709एम), 25 जनवरी 2005\*\*

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-818710एफ), 28 जनवरी 2005\*\*

नायब सूबेदार सियाराम कुमार सिंह (जेसी-818711के), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार उधो प्रसाद (जेसी-818712एम), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार अशीक अली (जेसी-818713पी), 07 मार्च 2005@@

नायब सूबेदार धरमबीर (जेसी-818714एक्स), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार भरत सिंह (जेसी-818715ए), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार गरज नारायण राम (जेसी-818716एच), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार परमेश्वर सिंह (जेसी-818717एल), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार राज कुमार उपाध्याय (जेसी-818718एन), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार घाना श्याम सोनोवाल (जेसी-818719डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार सुशील कुमार (जेसी-818720एल), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार लाला राम (जेसी-818721एन), 21 अप्रैल 2005\$\$

नायब सूबेदार मंगला राज यादवा (जेसी-818722डब्ल्यू), 04 अप्रैल 2005\$

नायब सूबेदार रणधीर सिंह (जेसी-818723वाई), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार एस एन पटनायक (जेसी-818724एफ), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार छक्की लाल पाल (जेसी-818725के), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार साहीदूर रहमान (जेसी-818727पी), 01 अप्रैल 2005

@(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जायेगी)

#(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

##(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

###(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

\$(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जायेगी)

%(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

^(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

&(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

++(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

\*\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

@@(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

\$\$ (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

#### सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार सुभाष चन्द शर्मा (जेसी-818443एल), 07 जनवरी 2005\*

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार राणा (जेसी-818450एफ), 22 जनवरी 2005\*

नायब सूबेदार अनुज कुमार श्रीवास्तव (जेसी-818451के), 01 अप्रैल 2005

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

#### सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार अर्जुन देवनीश तिरकी (जेसी-818347डब्ल्यू), 01 अगस्त 2003

दिवाकर  
अवर सचिव

सं. 409, दिनांक 19 जुलाई 2005--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

व्यक्ति का नाम, पदोन्नति और तारीख

/// सुनील कुमार धर, निजी सचिव, 12 जुलाई 2004

एम वी विजयन  
डेस्क आफिसर

सं. 410, दिनांक 18 जुलाई 2005--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) रैंक में

टी पी मधुसूदनन (एम आर-03042एक्स), 02 अक्टूबर 2003 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04 अगस्त 2003 से दी जाती है।

ले. कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) रैंक में

पी सी त्रिपाठी (एम आर-04237पी), 15 मार्च 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12 सितम्बर 2003 से दी जाती है।

आर के सिंह (एम आर-04437एल), 05 अप्रैल 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 नवम्बर 2003 से दी जाती है।

ए एल दास (एम आर-04513एम), 19 अप्रैल 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 दिसम्बर 2003 से दी जाती है।

एस के शर्मा  
ब्रिगेडियर

उप म. नि. स. से. चि. से. (कार्मिक)

सेना शाखा

सं. 411, दिनांक 19 जुलाई 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवा निवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कर्नल हरकिरत सिंह मंगत (आईसी-35308), आर्टी, 22 फरवरी 2005 (अपराह)

ले. कर्नल डी एन खण्डसे (आईसी-38413), आर्टी, 22 फरवरी 2005 (अपराह)

कर्नल पी एस नन्द कुमार (आईसी-36303), आर्टी, 14 फरवरी 2005 (अपराह)

मेजर एम बी रविन्द्रनाथ (आईसी-38662), बी आर सी इन्फैन्ट्री, 03 नवम्बर 2001 (अपराह)

कर्नल बी एम जुनेजा (आईसी-33123), इन्फैन्ट्री, 11 मई 2003 (अपराह)

कर्नल अल्लादा सूरेश प्रिया विनोद (आईसी-31377), इन्फैन्ट्री, 18 जून 2004 (अपराह)

कर्नल अजय सिंह (आईसी-31000), गार्ड, 14 जनवरी 2005 (अपराह)

कर्नल बोस जोगिन्द्र कौशल (आईसी-30213), एओसी, 29 फरवरी 2005 (पूर्वाह)

कर्नल डी डी विजय कुमार (आईसी-19014), एसी, 10 अप्रैल 2000 (अपराह)

ले. कर्नल अजय सक्सेना (आईसी-31113), एसी, 10 अगस्त 2000 (पूर्वाह)

ले. कर्नल सी एस पिल्लई (आईसी-37313), ईएमई, 30 अक्टूबर 2001 (अपराह)

ले. कर्नल रतन संजीव (आईसी-30996), इंजीनियर, 28 मई 2000 (अपराह)

कर्नल सुरेन्द्र नाथ कुडा (आईसी-30238), इंजी., 31 अगस्त 2002 (अपराह)

कर्नल राजा गोपालन सुरेश (आईसी-30737), इंजी., 30 जून 2001 (अपराह)

कर्नल मित्रा सुबीर कुमार (आईसी-36639), इंजी., 07 अगस्त 2001 (अपराह)

कर्नल कृष्णा स्वामी (आईसी-35797), इंजी., 05 सितम्बर 2004 (अपराह)

कर्नल भट्टचार्य कंचन (आईसी-24827), सिग्नल, 27 नवम्बर 2002 (अपराह)

कर्नल आर डी गुप्ता (आईसी-36135), सिग्नल, 25 फरवरी 2001 (अपराह)

कर्नल कांजीलाल संजीव चन्द्रा (आईसी-26532), सिग्नल, 04 अप्रैल 2001 (अपराह)

कर्नल विजयन्द्र सिंह चौधरी (आईसी-23020), सिग्नल, 30 अप्रैल 2000 (अपराह)

कर्नल कुलवीर सिंह (आईसी-25755), सिग्नल, 30 मई 2001 (अपराह)

ले. कर्नल अरूण कुमार लाल (आईसी-35030), सिग्नल, 24 जुलाई 2002 (अपराह)

कर्नल ललित तेन्दु कुमार दास (आईसी-24702), सिग्नल, 25 मार्च 2001 (अपराह)

कर्नल कृष्ण सिंह (आईसी-27546), सिग्नल, 15 सितम्बर 2001 (अपराह)

कर्नल सचदेवा राकेश (आईसी-32054), सिग्नल, 26 अप्रैल 2001 (अपराह)

ले. कर्नल पाण्डेयन एम (आईसी-37926), सिग्नल, 04 अगस्त 2004 (पूर्वाह)

मेजर राज कुमार (आईसी-45061), सिग्नल, 20 जून 2004 (अपराह)

ले. कर्नल मनदावा वेंकट रंगा राव (आईसी-41045), सिग्नल, 09 अगस्त 2004 (अपराह)



कर्नल मिर्जा अमीर अहमद (आईसी-33180), आर्टी, 08 नवम्बर 2000 (अपराह)

ले. कर्नल के. आर. शशि कुमार (आईसी-37254), एसएम, आर्टी, ए वी एन, 30 अप्रैल 2001 (अपराह)

कर्नल सेन गौतम (आईसी-30691), एसी, 07 फरवरी 2001 (अपराह)

कर्नल हरप्रीत सिंह (आईसी-27359), एसी, 20 नवम्बर 2001 (अपराह)

कर्नल राजेन्द्र चन्द राणा (आईसी-27346), एसी, 24 जून 2003 (अपराह)

ले. कर्नल उम्मान अनिल (आईसी-38310), एसी, 30 जून 2004 (अपराह)

कर्नल अशोक कुमार शर्मा (आईसी-27870), एसी, 10 अगस्त 2001 (अपराह)

ले. कर्नल एम पी शराकक्षण (आईसी-36842), इन्फैंट्री, 27 सितम्बर 2001 (अपराह)

कर्नल वाही नरेश चन्द्र (आईसी-25297), ईएमई, 27 फरवरी 2001 (अपराह)

कर्नल डी पी एस ग्रेवाल (आईसी-30299), ईएमई, 22 मई 2001 (अपराह)

कर्नल अमृत पाल सिंह उप्पल (आईसी-34319), ईएमई, 31 अगस्त 2003 (अपराह)

कर्नल कुरुविला मत्थाई (आईसी-38602), ईएमई, 25 अप्रैल 2004 (अपराह)

कर्नल जसबीर सिंह राजपाल (आईसी-36644), ईएमई, 08 अगस्त 2004 (अपराह)

कर्नल शेखावत देवेन्द्र सिंह (आईसी-24322), इन्फैंट्री, 30 सितम्बर 2002 (अपराह)

ले. कर्नल चरण नवदीप सिंह (आईसी-34788), इन्फैंट्री, 15 जुलाई 2002 (अपराह)

ले. कर्नल भास्कर नन्दा कुमार (आईसी-34594), इन्फैंट्री, 24 दिसम्बर 2002 (अपराह)

कर्नल यशपाल सिंह (आईसी-34045), इन्फैंट्री, 24 जून 2003 (अपराह)

कर्नल एन ए मुझुकट्टे (आईसी-27351), इन्फैंट्री, 20 अगस्त 2004 (अपराह)

आर के शर्मा  
संयुक्त निदेशक  
एमएस/पीआर

MINISTRY OF DEFENCE  
(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 20 August 2005

No. 403, dated 14th July, 2005—The President is pleased to appoint Shri S. S. Mohanty, IDAS (1979) as Finance Manager (M & S) in the Acquisition Wing of the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 4th July, 2005 for an initial period of three years extendable to five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

The President is pleased to appoint Shri Paras Ram, IDAS (1979) as Finance Manager (LS) in the Acquisition Wing of the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 4th July, 2005 for an initial period of three years extendable to five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

The President is pleased to appoint the under mentioned Assistants borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence as Section Officers on ad hoc basis in the Ministry of Defence (Finance Division) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- with effect from the 28.06.2005 (FN) to 26.12.2005, or till regular officers become available or till further orders whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Officer
1.	Shri J. K. Jain
2.	Shri M. K. Gupta
3.	Smt. Anita Seal
4.	Shri K. L. Gulati
5.	Shri Ramesh Chand
6.	Shri Deepak Bhambani
7.	Smt. Amanda Madhura
8.	Shri N. Kumaran Nair
9.	Shri A. K. Sehgal
10.	Shri H. C. Tanwar
11.	Shri Govind Prasad
12.	Smt. K. Saraswati
13.	Shri V. K. Kaura
14.	Shri D. R. Sahu
15.	Smt. Nirmal Chabra
16.	Shri A. K. Saxena
17.	Smt. Santosh Kumari
18.	Smt. Bhagwanti
19.	Shri D. P. Tanwar
20.	Shri Shanker Ganguly
21.	Shri Daulat Ram

The President is pleased to appoint the undermentioned Assistants borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence as Section Officers on ad hoc basis in the Ministry of Defence (Finance Division) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- with effect from the dates mentioned against their name to 26.12.2005, or till regular officers become available or till further orders whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Officer	With effect from
1.	Shri Sukh Dev	30.06.2005
2.	Shri T. D. Khattar	01.07.2005
3.	Shri Rajinder Singh	30.06.2005
4.	Shri V. P. Singh	29.06.2005
5.	Shri Krishan Prasad	01.07.2005
6.	Smt. Chander Kanta	01.07.2005
7.	Smt. Kanta Kamra	01.07.2005

M. C. LUTHER  
Dy. Financial Adviser (E)

RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 404, dated 15th July, 2005—The President is pleased to appoint the following Assistants as Section Officers under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rule 2001 from 24 Feb 2005 to 23 Aug 2005 or till a regular incumbent become available or till retire whichever is earlier :—

Shri Dev Raj  
Shri Duli Chand  
Shri Ragu Raj Singh  
Shri S. K. Bahl  
Shri R. K. Sharma  
Shri Prem Singh  
Shri P. N. Sharma  
Smt. Nirmala  
Shri R. C. Hashwani  
Shri Sankar Bose  
Shri G. S. Verma  
Shri D. R. Sharma

(Authority : A/47922/SO/7(8)/2005/CAO/P-1/20 dated 10 May 2005)

SANTOSH DASGUPTA  
Dy. Chief Administrative Officer (A)

No. 405, dated 14th July, 2005—The President is pleased to make the following promotion :—

**REGULAR ARMY**  
**REGIMENT OF ARTILLERY**  
To be substantive Subedar Major (GD)

Sub Nishan Singh (JC-223070P), 12 Oct 2003/01 Oct 2003\*

Sub Dharam Deo (JC-219860L), 30 Jun 2003/01 Apr 2003\*

Sub Basti Ram Yadav (JC-208566Y), 09 Mar 2004/01 Mar 2004\*

Sub Rajendaran Nair (JC-220008X), 16 Jan 2004/01 Jan 2004\*

Sub Harvir Singh (JC-206212L), 02 Mar 2004/01 Jan 2004\*

Sub Pritam Singh Yadav (JC-223241W), 09 Jan 2004/01 Jan 2004\*

Sub Amar Singh (JC-201259M), 12 Mar 2004/01 Mar 2004\*

Sub Jagbir Singh (JC-226475 H), 15 May 2004/01 Apr 2004\*

Sub Gajender Singh (JC-225549H), 01 May 2004

Sub Chandra Sekhar Shukla (JC-223594W), 01 May 2004

Sub Joginder Singh (JC-226276X), 17 May 2004/01 May 2004\*

Sub Dola Ram Ahir (JC-226223Y), 01 Jun 2004

Sub Khomane Karbhari Pandharinath (JC-256105A), 01 Sep 2004

Sub Krishan Pal Singh Bhadiriya (JC-225687K), 01 Aug 2004

Sub Padmanabhan EP (JC-256984Y), 01 Oct 2004

Sub Vijayan PR (JC-226367F), 03 Sep 2004/01 Sep 2004\*

Sub Kashmir Singh (JC-257077L), 01 Oct 2004

Sub Ishwar Singh (JC-258281W), 02 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Sub Karan Singh (JC-257281K), 01 Oct 2004

Sub Balwant Singh (JC-226636H), 16 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Sub Nanaiah MK (JC-221123K), 01 Oct 2004

Sub Om Prakash (JC-226546F), 06 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Sub Balbir Singh (JC-226867Y), 01 Oct 2004

Sub Jagat Singh Negi (JC-255147A), 01 Oct 2004

Sub Trirath Pratap Singh (JC-226485P), 01 Nov 2004

Sub Hari Ram Niwas Giri (JC-225716N), 01 Nov 2004

Sub Durga Bahadur Thapa (JC-223734X), 01 Nov 2004

Sub Bhosale Kamalakar Vithal (JC-236953Y), 01 Nov 2004

Sub Kale Hanumant S (JC-256259M), 03 Jan 2005/01 Jan 2005\*

Sub G Karutha Pandian (JC-256098P), 01 Jan 2005

Sub Pawar Mahadeo Sambaji (JC-256081F), 08 Feb 2005/02 Feb 2005\*

Sub Unni Krishnan Nair (JC-201672H), 07 Feb 2005/01 Feb 2005\*

Sub Shiv Kumar Yadav (JC-225680A), 01 Feb 2005

Sub Malkiat Singh (JC-256708W), 02 Feb 2005/01 Feb 2005\*

Sub Devi Dutt (JC-221266K), 12 Feb 2005/01 Feb 2005\*

Sub Ramender Kumar (JC-226114M), 14 Feb 2005/01 Feb 2005\*

Sub Amala Das (JC-255631M), 04 Feb 2005/01 Feb 2005\*

Sub Vijay Singh (JC-256271N), 05 Apr 2005/01 Feb 2005\*

To be substantive Subedar (GD)

Nb Sub Sube Singh (JC-262072W), 01 Apr 2004

Nb Sub O Eswaran (JC-263192F), 01 May 2004

Nb Sub Mohan Ram (JC-262740F), 02 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Nb Sub Santokh Raj (JC-264113N), 07 Dec 2004/01 Aug 2004\*

Nb Sub Risal Singh (JC-264623P), 27 Nov 2004/24 Aug 2004\*

Nb Sub Raj Kumar Singh (JC-261766K), 20 Sep 2004/24 Aug 2004\*

Nb Sub Ladu Singh Rawat (JC-264488M), 01 Dec 2004/24 Aug 2004\*

Nb Sub Shiv Prasad Yadav (JC-265400K), 24 Nov 2004/24 Aug 2004\*

Nb Sub Pratap Singh (JC-261561P), 25 Aug 2004

Nb Sub Hiren Chandra Ray (JC-264890W), 12 Dec 2004/25 Aug 2004\*

Nb Sub Bachu Singh (JC-263248H), 03 Nov 2004/26 Aug 2004\*

Nb Sub Madhusoodanan TC (JC-265039K), 21 Sep 2004/27 Aug 2004\*

Nb Sub Bharat Singh (JC-264507M), 16 Nov 2004/20 Aug 2004*	Nb Sub Jagtar Singh (JC-263242F), 06 Dec 2004/10 Aug 2004*
Nb Sub Pyari Mohan Rabhi (JC-264594L), 16 Nov 2004/30 Aug 2004*	Nb Sub Narayan Barik (JC-263919F), 08 Dec 2004/16 Aug 2004*
Nb Sub Surinder Singh (JC-260755L), 20 Oct 2004/31 Aug 2004*	Nb Sub Amrik Singh (JC-262130P), 09 Oct 2004/01 Sep 2004*
Nb Sub Pradhan Singh (JC-263017M), 18 Nov 2004/31 Aug 2004*	Nb Sub Krishan Kumar (JC-262261A), 11 Sep 2004/01 Sep 2004*
Nb Sub A Shanmuga Velu (JC-263731M), 13 Dec 2004/31 Aug 2004*	Nb Sub Rajinder Prasad Kaushik (JC-262414Y), 17 Oct 2004/01 Sep 2004*
Nb Sub Gulab Yadav (JC-263939P), 21 Oct 2004/31 Aug 2004*	Nb Sub Khem Chand (JC-262460N), 10 Sep 2004/01 Sep 2004*
Nb Sub Subhas Channappagol (JC-264850P), 01 Nov 2004/31 Aug 2004*	Nb Sub Kultar Singh (JC-262775X), 12 Oct 2004/01 Sep 2004*
Nb Sub Ramadasan K (JC-264707H), 04 Nov 2004/31 Aug 2004*	Nb Sub Jas Raj Singh (JC-263165X), 13 Oct 2004/01 Sep 2004*
Nb Sub Parmanand SM (JC-264710H), 09 Nov 2004/31 Aug 2004*	Nb Sub Asha Singh (JC-264154X), 01 Jan 2005/01 Sep 2004*
Nb Sub Balmiky Upadhyay (JC-264455F), 16 Nov 2004/31 Aug 2004*	Nb Sub Kulbir Singh (JC-264018F), 08 Oct 2004/01 Sep 2004*
Nb Sub M Udaya Sankar (JC-264398L), 11 Nov 2004/31 Aug 2004*	Nb Sub Hoshiar Singh (JC-264325Y), 06 Oct 2004/01 Sep 2004*
Nb Sub Batkeshwar Raj (JC-264509X), 22 Oct 2004/31 Aug 2004*	Nb Sub Mukhtar Singh (JC-264747K), 08 Oct 2004/01 Sep 2004*
Nb Sub C Lakshmanan (JC-265034L), 09 Dec 2004/31 Aug 2004*	Nb Sub Kailash Chand Sharma (JC-265310H), 05 Nov 2004/01 Sep 2004*
Nb Sub Dungar Singh (JC-265013P), 03 Nov 2004/31 Aug 2004*	Nb Sub Mahender Singh (JC-259625W), 24 Dec 2004/01 Oct 2004*
Nb Sub Baldev Singh (JC-265303M), 01 Nov 2004/31 Aug 2004*	Nb Sub Ram Babu (JC-261211H), 30 Oct 2004/01 Oct 2004*
Nb Sub Mahaveer Singh Shekhawat (JC-265307H), 03 Nov 2004/31 Aug 2004*	Nb Sub Katara Babasaheb Pandurang (JC-263022X), 16 Oct 2004/01 Oct 2004*
Nb Sub Wazir Singh (JC-265462K), 27 Sep 2004/31 Aug 2004*	Nb Sub Brij Mohan (JC-262858H), 04 Oct 2004/01 Oct 2004*
Nb Sub Hari Singh (JC-265485L), 09 Nov 2004/31 Aug 2004*	Nb Sub Taware Balasaheb Baburao (JC-262748N), 16 Oct 2004/01 Oct 2004*
Nb Sub Deb Singh Bhandari (JC-260949N), 25 Oct 2004/01 Sep 2004*	Nb Sub Mahabir Prasad Pandey (JC-262751N), 23 Oct 2004/01 Oct 2004*
Nb Sub Balkar Singh (JC-261989F), 09 Nov 2004/01 Sep 2004*	Nb Sub Hans Kumar (JC-263137L), 01 Oct 2004
Nb Sub Ramawatar Singh (JC-261999W), 12 Aug 2004/01 Aug 2004*	Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-262989N), 23 Dec 2004/01 Oct 2004*
Nb Sub Nand Kishore Rana (JC-262416K), 15 Aug 2004/01 Aug 2004*	Nb Sub Yashavant (JC-263394H), 16 Oct 2004/01 Oct 2004*
Nb Sub Gurmeet Singh (JC-264670M), 18 Aug 2004/01 Aug 2004*	Nb Sub Bhajan Singh (JC-263844P), 12 Nov 2004/01 Oct 2004*
Nb Sub Man Singh (JC-265015A), 01 Aug 2004	Nb Sub Sree Kumar KG (JC-263762M), 30 Oct 2004/01 Oct 2004*
Nb Sub Satvir Singh (JC-264181F), 21 Nov 2004/10 Aug 2004*	

Nb Sub Ganpat Singh (JC-263676F), 17 Nov 2004/01 Oct 2004\*

Nb Sub Kameshwar Ray (JC-263871Y), 26 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Nb Sub Islamuddin (JC-263832A), 26 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Nb Sub Ashok Kumar Ram (JC-261654K), 01 May 2004/01 Oct 2003\*

Nb Sub Babu Lal (JC-262502P), 08 Dec 2004/01 Oct 2003\*

Nb Sub Santosh Kumar Singh (JC-263046F), 01 Oct 2003

Nb Sub Malkit Singh (JC-263091N), 15 Mar 2004/01 Oct 2003\*

Nb Sub Dilip Kumar Singh (JC-261166F), 26 Jun 2004/01 Nov 2003\*

Nb Sub Ranga Rao (JC-262106H), 11 Sep 2004/01 Nov 2003\*

Nb Sub Dinar Singh (JC-264350X), 30 Apr 2004/14 Dec 2003\*

Nb Sub Vishnu Kumar (JC-263935Y), 15 Aug 2004/01 Jan 2004\*

Nb Sub Chander Shekhar Soodan (JC-260011A), 19 Jul 2004/01 Feb 2004\*

Nb Sub Ram Das Singh (JC-261525K), 02 Apr 2004/01 Feb 2004\*

Nb Sub Atiraj Singh (JC-262310X), 01 May 2004/01 Feb 2004\*

Nb Sub K Perumal (JC-263583M), 16 Mar 2004/01 Feb 2004\*

Nb Sub Ashok Kumar (JC-262461W), 08 Apr 2004/04 Mar 2004\*

Nb Sub Ram Avtar Singh (JC-262512Y), 01 Apr 2004

Nb Sub Master Gawade Ashok (JC-263131K), 01 Apr 2004

Nb Sub Dharmappa Gowda MN (JC-261964P), 29 Apr 2004/01 Apr 2004\*

Nb Sub Rameshwar Dayal (JC-263341K)] 05 Apr 2004/01 Apr 2004\*

Nb Sub Yogendra Bahadur Singh (JC-263121A), 01 Apr 2004

Nb Sub Mastan Singh (JC-263215X), 20 Apr 2004/01 Apr 2004\*

Nb Sub S Ganesan (JC-263964N), 01 Apr 2004

Nb Sub Ajit Singh (JC-263681M), 04 May 2004/01 Apr 2004\*

Nb Sub Karnail Singh (JC-263766H), 27 Apr 2004/01 Apr 2004\*

Nb Sub Brij Nath Singh (JC-264099N), 02 Apr 2004/01 Apr 2004\*

Nb Sub Purushothaman Kollanvalappil (JC-263994L), 23 Apr 2004/01 Apr 2004\*

Nb Sub Balbir Singh (JC-263810F), 01 Apr 2004

Nb Sub Phool Singh (JC-264162W), 01 Apr 2004

Nb Sub Ratti Ram (JC-264101Y), 05 May 2004/01 Apr 2004\*

Nb Sub Onkar Singh (JC-264232K), 01 Apr 2004

Nb Sub Milkhi Ram (JC-264231F), 11 Jun 2004/18 Apr 2004\*

Nb Sub Daya Nand (JC-261407W), 01 May 2004

Nb Sub Bidhi Chand (JC-264072P), 01 May 2004

Nb Sub Shilender Kumar (JC-262975N), 01 Jun 2004

Nb Sub Vijai Singh (JC-260136X), 01 Jul 2004

Nb Sub Rajinder Singh (JC-263025L), 05 Jul 2004/01 Jul 2004\*

Nb Sub Nirmal Hazra (JC-263730K), 01 Jul 2004

Nb Sub Ram Kumar Sharma (JC-264238L), 01 Jul 2004

Nb Sub Chandra Sain Pandey (JC-264695Y), 17 Jan 2005/17 Aug 2004\*

Nb Sub Parmbe Ramesh Digambar (JC-264852A), 04 Feb 2005/23 Aug 2004\*

Nb Sub Birpal Sharma (JC-264631N), 27 Nov 2004/24 Aug 2004\*

To be Substantive Subedar (RT)

Nb Sub Daljit Singh (JC-256377A), 02 May 2005/07 May 2005\*

Nb Sub Suresh Chandra Mishra (JC-256696M), 25 Apr 2005/01 Dec 2004\*

Nb Sub Ram Gopal Pathak (JC-258752Y), 26 Apr 2005/14 Jan 2005\*

Nb Sub Ram Dass Shukla (JC-258753F), 16 Apr 2005/18 Mar 2005\*

Nb Sub Umesh Chandra Gautam (JC-258754K), 11 Apr 2005/18 Mar 2005\*

Nb Sub Jitendra Kumar Sharma (JC-258626M), 03 Apr 2005/18 Mar 2005\*

Nb Sub Arbind Mishra (JC-258629A), 06 Apr 2005/18 Mar 2005\*

Nb Sub Santosh Kumar Tripathi (JC-258627P), 01 Apr 2005/18 Mar 2005\*

## To be Nb Sub

- RHM Paramjit Singh (No. 14346212Y now JC-267414H), 23 Aug 2004/21 Apr 2004\*
- BHM Radhe Shyam (No. 14365396X now JC-267415L), 27 Sep 2004/09 May 2004\*
- Hav Uttam Singh (No. 14367704L now JC-267416N), 18 Oct 2004/01 Aug 2004\*
- Hav Pratap Singh Kushwah (No. 14487987N now JC-267417W), 31 Aug 2004/01 Aug 2004\*
- Hav Prem Chand Chauhan (No. 14393162K now JC-267418Y), 09 Oct 2004/01 Aug 2004\*
- Hav Dilip Kumar Bhowmik (No. 14344688M now JC-267419F), 03 Nov 2004/01 Aug 2004\*
- RHM Inderjit Singh (No. 14479841L now JC-267420W), 05 Oct 2004/02 Aug 2004\*
- Hav R Narayana Samy (No. 15113506Y now JC-267421Y), 16 Nov 2004/15 Aug 2004\*
- BHM Tonge Ashok Baburao (No. 14353408P now JC-267422F), 28 Sep 2004/16 Aug 2004\*
- Hav Trilok Singh (No. 14487741P now JC-267423K), 15 Oct 2004/20 Aug 2004\*
- BHM Sarvjit Singh (No. 14348769K now JC-267424M), 18 Oct 2004/01 Sep 2004\*
- Hav Ram Pratap (No. 15101244F now JC-267425P), 01 Sep 2004
- Hav Mahadeo Domaji Sarode (No. 14471462A now JC-267426X), 16 Oct 2004/01 Oct 2004\*
- Hav Wadibhasma Bhayya Kashinath (No. 15104273F now JC-267427A), 16 Oct 2004/01 Oct 2004\*
- Hav Ranbir Singh (No. 14488651A now JC-267428H), 01 Oct 2004
- Hav Lajbir Singh (No. 14357873Y now JC-267429L), 10 Nov 2004/04 Nov 2004\*
- Hav Jaya Singh T (No. 14396795H now JC-267430A), 01 Nov 2004/04 Aug 2004\*
- Hav Dalavi Balkrishna Laxman (No. 14351669K now JC-267431H), 30 Aug 2004/05 Aug 2004\*
- BHM Vijayan P (No. 14357521A now JC-267432L), 12 Oct 2004/15 Aug 2004\*
- Hav Harbans Singh (No. 14360659F now JC-267433N), 09 Oct 2004/18 Aug 2004\*
- Hav Vijay Pal Singh (No. 14358530P now JC-267434W), 12 Oct 2004/20 Aug 2004\*
- Hav Bhawani Dutt (No. 14474064K now JC-267435Y), 11 Sep 2004/01 Sep 2004\*
- RHM Ram Chander (No. 14469485H now JC-267436F), 08 Oct 2004/28 Sep 2004\*
- Hav Dharam Lal Singh (No. 14466785X now JC-267437K), 12 Nov 2004/01 Oct 2004\*
- RHM Housela Prasad Singh (No. 14465548H now JC-267438M), 14 Oct 2004/01 Oct 2004\*
- RHM Inderjit Singh (No. 14380135F now JC-267439P), 28 Nov 2004/01 Oct 2004\*
- Hav Puran Singh (No. 14360192F now JC-267440K), 01 Oct 2004
- Hav Rajendra Singh (No. 14472696W now JC-267441M), 13 Oct 2004/01 Oct 2004\*
- Hav Jamdade Maruti Balu (No. 14474132M now JC-267442P), 11 Oct 2004/01 Oct 2004\*
- BHM N Sivanandam (No. 14363559F now JC-267443X), 10 Nov 2004/01 Nov 2004\*
- BHM Bakhshish Singh (No. 14354627H now JC-267444A), 11 Dec 2004/01 Nov 2004\*
- Hav Rameshwar Tiwari (No. 14470553X now JC-267445H), 06 Dec 2004/30 Nov 2004\*
- Hav Braham Prakash Yadav (No. 14359432F now JC-267446P), 18 Aug 2004/30 Nov 2004\*
- Hav Birendra Singh (No. 14363220P now JC-267447X), 13 Jul 2004/25 Feb 2004\*
- Hav Thomas PV (No. 14481317W now JC-267448A), 18 Oct 2004/18 Apr 2004\*
- Hav Ram Chandra Yadav (No. 14469087F now JC-267449H), 31 Jul 2004/09 May 2004\*
- Hav Rameshwar Lal Gaur (No. 14356505X now JC-267450X), 12 Jul 2004/03 Jun 2004\*
- BHM Netar Singh (No. 14476204K now JC-267451A), 18 Aug 2004/20 Jun 2004\*
- Hav Kumdrapu Venkata Ramana (No. 14397243Y now JC-267452H), 08 Jul 2004/25 Jun 2004\*
- Hav Ranjeet Singh (No. 14467230K now JC-267453L), 30 Jun 2004/29 Jun 2004\*
- Hav Saji Ram Meena (No. 14472440N now JC-267454N), 17 Aug 2004/10 Jul 2004\*
- RHM Ghana Kanta Gayari (No. 14376734P now JC-267455W), 20 Jul 2004
- Hav Mohan Singh Patwal (No. 14390402L now JC-267456Y), 24 Sep 2004/01 Aug 2004\*
- Hav Ram Avtar Singh (No. 14488994W now JC-267457F), 05 Aug 2004/01 Aug 2004\*
- Hav Kishan Pal (No. 14359334F now JC-267458K), 11 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Hav Surinder Kumar (No. 14473331N now JC-267259M), 18 Aug 2004

BHM Deo Kumar Sah (No. 14470779M now JC-267260F), 05 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav Megh Raj Verma (No. 14485445L now JC-267261K), 07 Jul 2004/29 Nov 2003\*

Hav Guman Singh (No. 15109519Y now JC-267262M), 20 May 2004/01 Feb 2004\*

Hav Rakesh Kumar (No. 14466326A now JC-267263P), 28 Apr 2004/21 Mar 2004\*

BHM Munna Lal Ojha (No. 14470945L now JC-267264X), 02 Jul 2004/01 Apr 2004\*

BHM Chanchal Singh (No. 14474712F now JC-267265A), 18 Aug 2004/09 Apr 2004\*

BHM K Velsolvam (No. 14356335F now JC-267266H), 27 Jul 2004/10 Jun 2004\*

Hav Rajan G (No. 15109158L now JC-267267L), 27 Jul 2004/30 Jun 2004\*

BHM Baljit Singh (No. 14345667H now JC-267268N), 07 Aug 2004/01 Jul 2004\*

Hav Anand Kumar Tewari (No. 14364253L now JC-267269W), 04 Oct 2004/06 Jul 2004\*

Hav Ram Nath Panday (No. 14469216W now JC-266270L), 29 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Hav Om Prakash (No. 14366511Y now JC-267271N), 03 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Hav Lekhanlal (No. 14486396A now JC-267272W), 01 Aug 2004

Hav Gaya Prasad (No. 14358725A now JC-267273Y), 01 Aug 2004

BHM Dinesh Prasad Singh (No. 14468339W now JC-267274F), 01 Aug 2004

Hav Sarvesh Kumar (No. 14486489P now JC-267275K), 12 Sep 2004/01 Sep 2004\*

Hav S Jawahar (No. 14487085Y now JC-267576M), 01 Sep 2004

(\*Gtd seniority wef)

#### CORPS OF SIGNALS

To be Naib Subedar (Y of S)

Hav Ram Vilas Pal (No. 14254154A now JC-376002X), 01 Jan 2005

Hav Rana Pratap Singh (No. 15371079H now JC-376004H), 01 Jan 2005

Hav Sumer (No. 15358733P now JC-376008Y), 01 Jan 2005

Hav Reghunathan PA (No. 15360744A now JC-376010W), 25 Jan 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Shree Kant (No. 14269148K now JC-376011Y), 01 Jan 2005

Hav Shaji K (No. 15360508Y now JC-376012F), 01 Jan 2005

Hav RS Singh Yadava (No. 15356957W now JC-376013K), 01 Jan 2005

Hav Pishawar Singh (No. 15364049H now JC-376014M), 01 Jan 2005

Hav Mahendra Pratap (No. 15366862K now JC-376016X), 01 Jan 2005

Hav Om Prakash Malaw (No. 15362422Y now JC-376017A), 01 Jan 2005

Hav DO Bhada Ravindra KR (No. 15363852P now JC-376019L), 01 Jan 2005

Hav Rakesh Kumar (No. 15374081L now JC-376020A), 01 Jan 2005

Hav Poul Soe MV (No. 15352956W now JC-376021H), 01 Jan 2005

Hav Naresh Kumar (No. 15363821P now JC-376022L), 01 Jan 2005

To be Naib Subedar (F of S)

Hav Prakash KG (No. 15366963X now JC-376023N), 01 Jan 2005

Hav NC Mallick (No. 15369230L now JC-376025Y), 20 Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Manik Kumar Maity (No. 15372066X now JC-376026F), 01 Jan 2005

To be Naib Subedar (OP Ciph)

Hav Ashok Kumar Singh (No. 14241102L now JC-375764Y), 12 Jan 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Jiyawan (No. 14251054K now JC-375799P), 01 Feb 2005

Hav Y Lal Bahadur Sastry (No. 14247048Y now JC-375800Y), 12 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav AK Pathak (No. 14232831Y now JC-375801F), 26 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Anand Singh (No. 14233955N now JC-375782F),  
01 Mar 2005

Hav Satvinder Singh (No. 14251962M now JC-375845Y),  
01 Mar 2005

Hav Rai Singh (No. 14246709F now JC-375846F),  
01 Mar 2005

Hav RS Sheoran (No. 14236615W now JC-375847K),  
01 Mar 2005

Hav Anil Kumar Tiwari (No. 14248337A now JC-375848M), 01 Mar 2005

Hav Mohammed NK (No. 14252519L now JC-375849L),  
01 Mar 2005

Hav Brajesh Kumar (No. 14251868H now JC-375850K),  
01 Mar 2005

Hav Ram Karan (No. 14252779W now JC-375851M),  
03 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2005 without effect on pay and allowances)

Hav Jangbir (No. 14252719F now JC-375852P), 15 Mar  
2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2005 without effect on pay and allowances)

Hav Suman Kumar (No. 14253114M now JC-375853X),  
01 Mar 2005

Hav Surender Singh (No. 14246216A now JC-375854A),  
01 Mar 2005

Hav Kapal Singh (No. 14248433P now JC-375917X),  
01 Apr 2005

Hav Brajabandhu Mahanty (No. 14243870L now JC-375918L), 01 Apr 2005

Hav Rajender Singh (No. 14253271Y now JC-375919H),  
01 Apr 2005

Hav Zile Singh (No. 14253592W now JC-375920X),  
01 Apr 2005

Hav Ram Dev (No. 14248844N now JC-375922H),  
01 Apr 2005

Hav Markandey (No. 14253925X now JC-376033X),  
01 May 2005

To be Naib Subedar (OP Sepc)

Hav T Raju (No. 14255755X now JC-375715W), 01 Nov  
2004

Hav D Padmanabhan (No. 14257407P now JC-375716Y),  
01 Nov 2004

Hav Basker J (No. 14255759N now JC-375733Y), 01 Dec  
2004

Hav Shakti Ram (No. 14255783K now JC-375734F),  
01 Dec 2004

Hav Sonjoy Kumar Sinha (No. 14256081X now JC-375735K), 13th Dec 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004  
without effect on pay and allowances)

Hav Bhanwar Singh (No. 14256300N now JC-375736M),  
1st Dec 2004

Hav Vijay Pal Singh (No. 14256323P now JC-375737P),  
1st Dec 2004

Hav Mukh Nath Yadava (No. 14258044H now JC-375738X), 1st Dec 2004

Hav Kashmir Singh (No. 14254582Y now JC-375765F),  
1st Jan 2005

Hav Thomas Joseph (No. 14259690Y now JC-375766K),  
4th Jan 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav A P Singh (No. 14257705L now JC-375767K), 1st  
Jan 2005

Hav Jagdev Singh (No. 14256791P now JC-375768P),  
1st Jan 2005

Hav Sunil Lahon (No. 14246531N now JC-375781Y),  
01 Jan 2005

Hav Kashinath Ram (No. 14245638Y now JC-375909Y),  
24 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Dadhibal Singh (No. 14243902H now JC-375803M),  
10 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Radhaswami Pradhan (No. 14253992H now JC-375804P), 01 Feb 2005

Hav Dhanna Singh (No. 14249054L now JC-375805X),  
01 Feb 2005

Hav Madhaw Pandey (No. 14246975A now JC-375806A),  
01 Feb 2005

Hav Sudarshan Kumar (No. 14253960A now JC-375807H), 05 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Jagdev Singh (No. 13958189K now JC-375809N),  
18 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Anand Singh (No. 14254985Y now JC-375810H),  
16 Feb 2005



(Granted seniority in the rank of Nb sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Nain Singh Kotwal (No. 14246436K now JC-375855H), 01 Mar 2005

Hav Kamlakant Tiwari (No. 14257291K now JC-375856L), 12 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Omkar Sharma (No. 14256014M now JC-375859Y), 01 Mar 2005

Hav TN Tripathi (No. 14256479M now JC-375860N), 01 Mar 2005

Hav A Ballabh Pandey (No. 14256602A now JC-375861W), 01 Mar 2005

Hav Mam Chand Yadav (No. 14255645H now JC-375862Y), 01 Mar 2005

Hav Sarwan Singh (No. 14257642N now JC-375863F), 01 Mar 2005

Hav Rachpal Singh (No. 14257535M now JC-375864K), 01 Mar 2005

Hav R Karthikeyan (No. 14257913A now JC-375865M), 01 Mar 2005

Hav Joseph Raj D (No. 14257947N now JC-375866P), 01 Mar 2005

Hav Kuldeep Singh (No. 14253071H now JC-375867X), 01 Mar 2005

Hav Krishna Nand (No. 14258236A now JC-375868A), 01 Mar 2005

Hav Sita Ram (No. 14252048H now JC-375910N), 03 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Subhash Chander (No. 14256131X now JC-375925W), 04 Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Lakshman Singh (No. 14258676N now JC-375927F), 01 Apr 2005

Hav Surender Mohan (No. 14255979X now JC-375928K), 09 Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Jadhav Vilas S (No. 14258758W now JC-375929M), 01 Apr 2005

Hav Ramotar Yadav (No. 14259087K now JC-375930F), 01 Apr 2005

Hav Devender Singh (No. 14255844W now JC-375932M), 01 Apr 2005

Hav Satya Narain (No. 14258886N now JC-375933P), 01 Apr 2005

Hav S P Singh (No. 14259145H now JC-375934X), 01 Apr 2005

Hav G Anil Shripathi (No. 14259416P now JC-375936H), 01 Apr 2005

Hav Umesh Singh (No. 14259164N now JC-375937L), 01 Apr 2005

Hav Ramsahay Tiwari (No. 14259229W now JC-375938N), 01 Apr 2005

Hav Sumer Singh (No. 14254414A now JC-375939W), 01 Apr 2005

Hav Dev Raj Thakur (No. 14257638L now JC-375941N), 13 Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav R T Verma (No. 14249213X now JC-375943Y), 01 Apr 2005

Hav Balbir Singh (No. 14250449Y now JC-375945K), 01 Apr 2005

Hav B N Choubhey (No. 14256225X now JC-375946M), 01 Apr 2005

Hav Amar Singh (No. 14259320M now JC-375947P), 20 Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Suresh Pal (No. 14254635M now JC-375949A), 01 Apr 2005

Hav Duryodhan Moharana (No. 14256189P now JC-375952A), 01 Apr 2005

Hav Omanakuttan Pillai (No. 14259645A now JC-375953H), 01 Apr 2005

Hav Pat Ram Yadav (No. 14260240F now JC-375955N), 01 Apr 2005

Hav Hariom Singh (No. 14251909F now JC-375956W), 06 Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav S Thambiraj (No. 14259599W now JC-375957Y), 01 Apr 2005

Hav N Kumaran (No. 14260229H now JC-375958F), 01 Apr 2005

Hav R N Bhujbal (No. 14255245W now JC-375959K), 01 Apr 2005

To be Naib Subedar (Clk GD)

Hav Dev Chand (No. 14250256Y now JC-375769X), 01 Jan 2005

Hav Radhey Shyam Pal (No. 14250906F now JC-375770M), 01 Jan 2005

Hav Prem Singh (No. 14245823M now JC-375869H), 14 Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Nilkamal Adhikari (No. 14252056F now JC-375870X), 07 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Hakim Singh (No. 14246382N now JC-375871A), 01 Mar 2005

Hav Subodh Kumar Singh (No. 14249669M now JC-375872H), 01 Mar 2005

Hav Ram Pravesh Yadav (No. 14251784P now JC-375873L), 06 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Parshuram Sahoo (No. 14255242H now JC-375960Y), 01 Apr 2005

Hav Baldev Singh (No. 14256404P now JC-375961F), 01 Apr 2005

Hav N Sathiamoorthy (No. 14244407W now JC-375962K), 01 Apr 2005

Hav Mohinder Singh (No. 14246328F now JC-375963M), 01 Apr 2005

To be Naib Subedar (SKT)

Hav Bhagvan Boksh Singh (No. 14242674Y now JC-375783K), 15 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Kishan Kishore (No. 14255642P now JC-375964P), 01 Apr 2005

Hav HK Idathi (No. 14253192K now JC-375966A), 01 Apr 2005

To be Naib Subedar (GD)

Hav Satyawar Singh (No. 14248223P now JC-375622F), 09 Aug 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Kuldeep Singh (No. 14248590F now JC-375626X), 01 Aug 2004

Hav KG Chakraborty (No. 14236710H now JC-375763W), 01 Dec 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Dharendra Kumar (No. 14248917P now JC-375690P), 01 Oct 2004

Hav VB Singh (No. 14230981K now JC-375707X), 01 Oct 2004

Hav Rishi Ram Sharma (No. 14243732K now JC-375721K), 01 Nov 2004

Hav Dip Narayan Sharma (No. 14241813L now JC-375726H), 01 Nov 2004

Hav Arbind Kumar (No. 14244091P now JC-375743H), 02 Jan 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav MD Nurmahammad Ali (No. 14247825W now JC-375744L), 01 Dec 2004

Hav Amrik Singh (No. 14249215H now JC-375747Y), 01 Dec 2004

Hav Baljit Singh (No. 14249298Y now JC-375748F), 01 Jan 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Ved Prakash (No. 14249701A now JC-375750Y), 22 Dec 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Sarabdeo Singh (No. 14250171H now JC-375751F), 11 Jan 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Prakash (No. 14250439P now JC-375753M), 01 Dec 2004

Hav Dinesh Kumar Prasad (No. 14245557Y now JC-375759N), 11 Dec 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Champa Ram Nayak (No. 14248705K now JC-375772X), 01 Jan 2005

Hav Birendra Kumar Singh (No. 14243028N now JC-375773A), 01 Jan 2005

Hav Chhotan Mahto (No. 14246325M now JC-375774H), 01 Jan 2005

Hav Anand Pal (No. 14247523K now JC-375775L), 01 Jan 2005

Hav Ram Bahadur (No. 14247876K now JC-375776N), 01 Jan 2005

Hav Rabindra Prasad (No. 14247349H now JC-375777W), 01 Jan 2005

Hav Lallan Kumar Ray (No. 14271266W now JC-375778Y), 01 Jan 2005

Hav Ram Bachan (No. 14231093F now JC-375779F), 01 Jan 2005

Hav Raj Deo Verma (No. 14243972F now JC-375780W),  
01 Jan 2005

Hav B P Singh (No. 14239390K now JC-375785P), 28  
Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Sri Bhagwan Pandey (No. 14240124X now JC-  
375786X), 20 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Basgit Singh (No. 14243016Y now JC-375787A),  
04 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Hem Raj (No. 14246292M now JC-375788H), 18 Feb  
2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav K P Singh (No. 14245561F now JC-375789L), 01  
Jan 2005

Hav S K Kaushik (No. 14246706N now JC-375790A),  
09 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Raj Kumar Rai (No. 14243923Y now JC-375791H),  
12 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav S R Jampani (No. 14245435P now JC-375792L), 01  
Jan 2005

Hav Ranjan Kumar Das (No. 14245535A now JC-  
375793N), 10 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Thanda Ram Adhikari (No. 14243344M now JC-  
375794W), 04 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Mohinder Pal Singh (No. 14246500W now JC-  
375795Y), 23 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Ram Mohan Singh (No. 14242213P now JC-  
375796F), 20 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Babu Lal (No. 14239002F now JC-375797K), 26  
Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Tek Chand (No. 14238460L now JC-375798M), 03  
Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Ranglal Singh (No. 14236478H now JC-375812N),  
27 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Darshan Kumar (No. 14239823W now JC-375813W),  
01 Feb 2005

Hav Joginder Pal (No. 14242387P now JC-375814Y), 07  
Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Rumeel Singh (No. 14242733A now JC-375815F), 01  
Feb 2005

Hav Bhagwat Dayal (No. 14249094M now JC-375816K),  
01 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Awadh Lal Prasad (No. 14270482X now JC-  
375817M), 07 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Ganga Prasad (No. 14247728Y now JC-375818P),  
15 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Ram Prakash (No. 14250385Y now JC-375915M),  
01 Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Shiwakant Ojha (No. 14250904W now JC-375819X),  
28 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Mayadhar Behera (No. 14245493Y now JC-  
375820M), 01 Feb 2005

Hav Balwant Singh (No. 14246404F now JC-375822X),  
01 Feb 2005

Hav Gulzar Singh (No. 14245884K now JC-375823A),  
01 Feb 2005

Hav Alakh Narain (No. 14248677H now JC-375824H),  
14 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Ram Babu Singh (No. 14231098A now JC-375825L),  
15 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Madhusudan K (No. 14249071L now JC-375826N),  
01 Feb 2005

Hav Ram Vinod Singh (No. 14249862H now JC-  
375827W), 01 Feb 2005

Hav Ram Singh Dahiya (No. 14249719W now JC-  
375828Y), 21 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Anand Singh Bisht (No. 14249537H now JC-  
375829F), 01 Feb 2005

Hav Gorakh Nath (No. 14270207X now JC-375830W),  
01 Feb 2005

Hav Kuldeep Singh (No. 14248689X now JC-375831Y),  
01 Feb 2005

Hav Parmeshwar Tiwari (No. 14245440A now JC-  
375832F), 19 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Ravindran P K (No. 14245630M now JC-375833K),  
08 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav Kuldeep Singh (No. 14246511H now JC-375834M),  
08 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005  
without effect on pay and allowances)

Hav A N Prasad Kumar (No. 14246808K now JC-  
375835P), 01 Feb 2005

Hav Dharamvir Singh (No. 14246463N now JC-  
375836X), 01 Feb 2005

Hav Ashok Kumar (No. 14248761H now JC-375837A),  
01 Feb 2005

Hav Sehdev Singh (No. 14248932K now JC-375838H),  
01 Feb 2005

Hav Balbir Singh (No. 14239535K now JC-375839L),  
01 Feb 2005

M. M. SINGH  
Under Secy.

No. 406, dated 18th July 2005—The President is pleased  
to make the following promotions :—

# REGULAR ARMY

## Infantry

### The Mechanised Infantry Regiment

#### To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Sukhdev Singh (JC-418339K), 29 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar  
Major wef 01 Apr 2005 without effect on pay and  
allowances)

#### To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Dhrupa Yadav (JC-419252P), 22 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef  
01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Lachhman Singh (JC-419558X), 21 May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef  
01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Khokan Chandra Roy (JC-419346M), 01 Jan 2005

Nb Sub Kishore Singh (JC-419438Y), 21 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef  
01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surendra Singh (JC-419515H), 09 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef  
01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rattan Lal (JC-419596N), 09 May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef  
01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Tirath Ram (JC-419114N), 10 May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef  
01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Patil Ramchandra Bhiku (JC-419361F), 01 May  
2005

Nb Sub Bodhu Ram (JC-419394M), 01 May 2005

Nb Sub Ram Singh (JC-419426K), 02 May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef  
01 May 2005 without effect on pay and allowances)

#### To be Naib Subedar (RT) (Pandit)

Sanjay Kumar Dubey (JC-420136Y), 19 Feb 2005

Gurjog Singh (JC-420137F), 19 Feb 2005

#### To be Naib Subedar

Hav Jagannath Prasad (No. 14903556F now JC-420272P),  
23 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect  
from 09 Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Prakash Singh (No. 14906288N now JC-420273X), 23 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 03 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Niwas Sharma (No. 14907570L now JC-420274A), 12 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 03 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Hoshier Singh Jethi (No. 14907692P now JC-420275H), 12 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 03 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Hayat Singh (No. 14908416Y now JC-420276L), 12 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Swaran Kumar (No. 14908085H now JC-420277N), 20 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Surjit Singh (No. 14907170Y now JC-420278W), 20 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Hav P Irulappan (No. 14904556N now JC-420279Y), 07 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Om Singh (No. 14908158K now JC-420280N), 15 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Harbans Lal (No. 14908325P now JC-420281W), 02 May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

#### ARMOURED CORPS (To be Substantive Risaldar)

Naib Risaldar Soma Sundaran K (JC-237997F), 09 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Udai Pratap (JC-238548Y), 01 Aug 2004

Naib Risaldar Satyabir Singh (JC-238583P), 01 Aug 2004

Naib Risaldar Basudev Singh (JC-238590X), 01 Aug 2004

Naib Risaldar Dharam Paul (JC-238674L), 01 Aug 2004

Naib Risaldar Sultan Ahmed (JC-239012P), 01 Aug 2004

Naib Risaldar Jayanta Bezbaruah (JC-239144H), 09 Sep 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Jaswant Singh (JC-239270P), 19 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Akbar Kathat (JC-239342N), 16 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Satyabir Singh Malik (JC-239440P), 16 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Jhalaman Singh (JC-239452H), 10 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Mohan Ram Bishnoi (JC-239447X), 10 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Hira Singh (JC-239450X), 10 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Ranbir Singh (JC-239451A), 16 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Sudama Sharma (JC-239457F), 18 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Ingola Ramesh Baliramji (JC-239673P), 10 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Rajendra Singh (JC-239672M), 10 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Balwinder Singh (JC-238280M), 01 Sep 2004

Naib Risaldar Suresh Chandra (JC-238815P), 15 Oct 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Sept 2004 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Daljit Singh (JC-239032H), 01 Sep 2004	Naib Risaldar Ajit Singh (JC-239332K), 02 Mar 2005*
Naib Risaldar Man Singh Rana (JC-239154M), 01 Sep 2004	*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)
Naib Risaldar Yashwant Singh (JC-239179Y), 16 Nov 2004*	Naib Risaldar Shankar Singh (JC-239494P), 16 Jan 2005*
*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances)	*(Gtd seniority in the rank Ris wef 01 Jan 2005)
Naib Risaldar Mahendra Singh (JC-239677L), 01 Sep 2004	Naib Risaldar Virender Singh (JC-239752K), 17 Jan 2005*
Naib Risaldar Nar Singh Prasad (JC-239675A), 01 Sep 2004	*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)
Naib Risaldar Prem Nath (JC-239714N), 01 Sep 2004	Naib Risaldar Mohammad Januddin (JC-239838H), 10 Mar 2005*
Naib Risaldar Krishna Pal Singh (JC-239903X), 01 Sep 2004	*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)
Naib Risaldar Om Prakash (JC-238057N), 01 Oct 2004*	Naib Risaldar Sone Lal (JC-238824W), 04 May 2005*
Naib Risaldar Shivji Yadav (JC-238588A), 01 Oct 2004	*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)
Naib Risaldar Sher Singh (JC-239456Y), 01 Oct 2004	Naib Risaldar Bachan Lal (JC-238745F), 01 Feb 2005
Naib Risaldar Mallavolu Satayanarayana (JC-239605P), 01 Oct 2004	Naib Risaldar M Ram Kumar (JC-239034N), 18 Feb 2005*
Naib Risaldar Labh Singh (JC-239668K), 31 Oct 2004*	*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)
*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)	Naib Risaldar Ram Bhaj (JC-239527P), 28 Feb 2005*
Naib Risaldar Abdul Samad Choudhary (JC-239716Y), 01 Oct 2004	*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)
Naib Risaldar Rajan Thomas KE (JC-240039Y), 04 Oct 2004*	Naib Risaldar Har Kishan Kachhi (JC-238546A), 01 Feb 2005
*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)	Naib Risaldar Logendra Basumata (JC-239773A), 23 Mar 2005*
Naib Risaldar Jai Singh (JC-238925K), 10 Nov 2004*	*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)
*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances)	Naib Risaldar Sita Ram Sharma (JC-239928K), 06 Mar 2005*
Naib Risaldar R Janardhanan (JC-239255A), 01 Nov 2004	*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)
Naib Risaldar Raja Ram Pandey (JC-239531X), 13 Jan 2005*	To be Nb Ris
*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances)	Dfr Harmit Singh (No. 01072159X now JC-241249L), 14 Apr 2005*
Naib Risaldar Pratap Singh (JC-238816K), 20 Jan 2005*	*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)
*(Granted seniority in the rank of Ris wef 18 Nov 2004 without effect on pay and allowances)	Dfr S Johnson (No. 01068447M now JC-241257K), 21 Apr 2005*
Naib Risaldar Ningappa Kumbhar (JC-239862Y), 01 Dec 2004	*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances.)
Naib Risaldar Dhruvdeo Singh Rana (JC-240141F), 26 Feb 2005*	Dfr Dibakar Pradhan (No. 01068509F now JC-241258M), 22 Apr 2005*
*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)	*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Hoshiar Singh (No. 01071139X now JC-241261M),  
20 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 03 Mar 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Tej Bhan Sharma (No. 01074119P now JC-241262P),  
10 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 03 Mar 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Raghu Nath Singh (No. 01070357K now JC-241273F),  
11 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2004  
without effect on pay and allowances)

Dfr Prem Nath Bharti (No. 01070473M now JC-  
241274K), 11 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2004  
without effect on pay and allowances)

Dfr Hanumant Prasad (No. 01070301X now JC-241275M),  
11 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2004  
without effect on pay and allowances)

Dfr Ram Pervash Singh (No. 01075033H now JC-  
241276P), 21 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 05 Nov 2004  
without effect on pay and allowances)

Dfr Prabhakaran Kazhum Gody (No. 01074347X now JC-  
241277X), 13 May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 30 Nov  
2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Shrikant Giri (No. 01075086F now JC-241280X),  
21 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Patil Dodase Ram Chandra (No. 01070528L now JC-  
241283A), 14 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 17 Mar  
2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Braj Mohan Singh Ponia (No. 01074859K now JC-  
241284N), 11 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 20 Mar  
2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Daroga Singh (No. 01073361X now JC-241285W),  
07 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Kishan Singh Bhaduria (No. 01077116M now JC-  
241291K), 05 May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Mohan Singh (No. 01071233F now JC-241299W),  
02 May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec  
2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Satya Pal (No. 01074927M now JC-241300A), 09  
May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Bir Singh (No. 01072302Y now JC-241301H), 01  
May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 08 Mar  
2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Ranbir Singh (No. 01075559P now JC-241302L), 01  
May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Inder Singh (No. 01077908M now JC-241304W), 01  
May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Anil Kumar Choudhary (No. 01074442K now JC-  
241306F), 01 May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Arun Kumar Verma (No. 01068229N now JC-  
241307K), 04 May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 09 Apr 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Chhotu Ram Choudhary (No. 01075241X now JC-  
241308M), 28 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 10 Apr 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Dharam Pal (No. 01076639Y now JC-241309P), 01  
May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 15 Apr 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Diwan Chand (No. 01070658N now JC-241310K),  
01 May 2005

Dfr Ram Chandra Tukaram Khade (No. 01074403L now  
JC-241311M), 01 May 2005

Dfr Mukhtar Singh (No. 01079432K now JC-241313X),  
01 May 2005

Dfr Kulwinder Singh (No. 01079630P now JC-241314A),  
01 May 2005

Dfr Basavantappa Patil (No. 01069948Y now JC-  
241316L), 01 May 2005

Dfr Amrik Singh (No. 01078635F now JC-241317N), 01  
May 2005

## BRIGADE OF THE GUARDS

## To be Nb Sub

Hav/Dvr Ram Kumar Sharma (No. 13688595A now JC-403720A), 16 Apr 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Aug 2004)

Hav Gulab Singh (No. 13684479A now JC-403721H), 17 Mar 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Sept 2004)

Hav Diwan Singh (No. 13686067X now JC-403703A), 02 Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 21 Sep 2004)

Hav Ramesh Chander (No. 13682396W now JC-403638L), 17 Oct 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 26 Sep 2004)

Hav Narayan Singh (No. 13682556L now JC-403722L), 01 Apr 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Oct 2004)

Hav Sarvesh Kumar (No. 13688413F now JC-403723N), 28 Mar 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 29 Dec 2004)

Hav/Gnr Rajinder Singh (No. 13685917K now JC-403730K), 01 Jan 2005

Hav Shiv Singh (No. 13682739F now JC-403704H), 25 Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 26 Jan 2005)

Hav Pushkar Singh (No. 13684233F now JC-403724W), 09 Mar 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Feb 2005)

Hav Dharamvir Singh (No. 13683463H now JC-403731M), 24 Feb 2005

Hav/Dvr D Rama Swamy (No. 13689985P now JC-403705L), 01 Mar 2005

Hav Ganesh Sonowal (No. 13684678N now JC-403725Y), 20 Apr 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 04 Mar 2005)

Hav Purna Ch Ray (No. 13685946Y now JC-403732P), 10 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 04 Mar 2005)

Hav/Gnr Parash Ram Singh Tomar (No. 13689558Y now JC-403733X), 13 Mar 2005

Hav/Gnr Anil Kumar KV (No. 13690711W now JC-403726F), 21 Mar 2005

Hav Suresh Kumar (No. 13685403M now JC-403727K), 01 Apr 2005

Hav Inderjit Singh Chahal (No. 13687574X now JC-403728M), 01 Apr 2005

Hav/Gnr Netra Pal (No. 13690283H now JC-403729P), 28 Apr 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Apr 2005)

Hav Labanya Kumar Ray (No. 13685965K now JC-403735H), 16 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Apr 2005)

Hav/Dvr Kailash Chand Yadav (No. 13688740M now JC-403734A), 21 Apr 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Apr 2005)

Hav Nagendra Singh (No. 13688777N now JC-403736L), 12 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 11 Apr 2005)

Hav Mukhtiyar Singh (No. 13683704X now JC-403737N), 01 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 14 Apr 2005)

Hav/Dvr Ramjeet Singh (No. 13685343H now JC-403738W), 01 May 2005\*

## To be Nb Sub (Musician)

Hav (Musn) Lalit Chandra Neog (No. 13682901N now JC-403689Y), 14 Dec 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 10 Aug 2004)

## THE PRESIDENT'S BODYGUARD

## To be Nb Ris Clk (GD)

Dfr/Clk GD Ratan Singh (No. 13700363W now JC-235041M), 13 Jun 2005

## To be Nb Ris (GD)

RQMD Prithvi Singh (No. 13700391H now JC-235040K), 01 Jun 2005

JOSE THOMAS  
Under Secy.



No. 407, dated 14th July 2005—The President is pleased to make the following promotions:—

### REGULAR ARMY

#### DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Krishnan MV (JC-165469Y), 01 Jan 2005  
 Sub Radhakrishnan Nair KN (JC-133509F), 01 Feb 2005  
 Sub Fate Singh Negi (JC-172581N), 01 Mar 2005  
 Sub Nandjee Singh (JC-169430K), 01 Mar 2005  
 Sub Onkar Chand (JC-175836N), 01 Mar 2005

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Puran Mal (JC-840654N), 01 Feb 2005  
 Nb Sub Siya Ram (JC-840679A), 01 Feb 2005  
 Nb Sub Krishan Singh (JC-840673Y), 01 Feb 2005  
 Nb Sub Hari Ram (JC-840692K), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Jagpati Chauhan (JC-840685N), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Man Singh (JC-840693M), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Rajpal Singh (JC-840686W), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Braja Babu Singha (JC-840694P), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Munna Lal (JC-840695X), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Harpal Singh (JC-840696A), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Kurtan M (JC-840741M), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Rajnarayan Singh (JC-840697H), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Amar Nath Singh (JC-840700X), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Unnialan E (JC-840753W), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Santosh Kumar (JC-840725K), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Isham Singh (JC-840726M), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Bhyuraj Singh Rawat (JC-167216H), 01 Mar 2005

To be Substantive Subedar Major (Clerk)

Sub Clk Sasidhara Kurup C (JC-172464H), 04 Mar 2005

To be Substantive Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Banwari Lal (JC-840645M), 01 Oct 2004  
 Nb Sub (Clk) MN Venugopalan Nair (JC-840621H), 01 Nov 2004  
 Nb Sub (Clk) Jai Singh (JC-840661K), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (Clk) Babu MK (JC-840707F), 01 Feb 2005  
 Nb Sub (Clk) Shri Bhagwan Singh (JC-840708K), 01 Feb 2005  
 Nb Sub (Clk) D Sundaresan (JC-840709M), 01 Mar 2005

T.K.M. PILLAI  
 Under Secy.

No. 408, dated 15th July 2005—The President is pleased to make the following promotion :—

### REGULAR ARMY INFANTRY THE MAHAR REGIMENT

To be Subedar Major (Religious Teacher)

Sub RT Liladhar Pandey (JC-98743W), 07 Jan 2005\*

\*(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2005)

Sub RT Jagdish Prasad Pyasi (JC-152335F), 01 Mar 2005

### THE PARACHUTE REGIMENT

To be Subedar (Religious Teacher)

Lavkesh Prasad Gautam (JC-412136K), 01 Dec 2004

### SPECIAL LIST THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Randhir Singh (JC-499352L), 25 Sep 2004

Kuldeep Singh (JC-499443P), 11 Dec 2004

NK Gurcharan Singh (No. 3394413F now JC-499495L), 11 Dec 2004

### CORPS OF MILITARY POLICE

To be Subedar Major (MP)

Sub Harbhajan Singh (JC-215433Y), 11 Jan 2004\*

Sub Lalta (JC-216272N), 01 Jan 2004

Sub Unni Krishnan PG (JC-216275F), 01 Feb 2004

Sub Punai Baxla (JC-216281P), 01 Feb 2004

Sub Loca Satyam Reddy (JC-216288Y), 01 Feb 2004

Sub Dinesh Chandra (JC-219966Y), 20 Feb 2004#

Sub Narain Datt Malasi (JC-818022H), 01 Jul 2004

Sub Hari Dasan EP (JC-818026Y), 12 Jul 2004\$

Sub Shis Pal Singh (JC-818029M), 02 Aug 2004%

Sub Suresh Chandra Saha (JC-818171W), 01 Nov 2004

Sub Ashok Kumar Singh (JC-818172Y), 16 Nov 2004^

Sub Dharambir Dogra (JC-818178A), 01 Dec 2004

Sub Sukh Chain Singh (JC-818224K), 12 Jan 2005&

Sub Bhupendra Singh (JC-818260P), 06 Jan 2005&

Sub Mohan Appasaheb Bhosale (JC-818274P), 26 Jan 2005&

Sub Jagnarayan Singh (JC-818281L), 01 Mar 2005

Sub Baldev Raj Sharma (JC-818312A), 09 Apr 2005+

\*(Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

#(Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 02 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

\$(Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

%(Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

^(Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

&(Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

+(Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

To be Subedar Major (Musn)

Sub Abdul Rasheed S (JC-818294H), 06 Mar 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

To be Subedar (MP)

Nb Sub Dalvi Sopan Pandharinath (JC-818527Y), 01 Jan 2004

Nb Sub Shyamdeo Gosawami (JC-818528F), 01 Jan 2004

Nb Sub Chhote Lal Ram (JC-818529K), 01 Jan 2004

Nb Sub Lal Singh (JC-818530Y), 01 Jan 2004

Nb Sub Binay Kumar Singh (JC-818531F), 17 Jan 2004@

Nb Sub Ram Akwal Jha (JC-818532K), 01 Jan 2004

Nb Sub Inderjit Yadav (JC-818533M), 01 Jan 2004

Nb Sub Madan Lal Yadav (JC-818535X), 01 Jan 2004

Nb Sub Hira Singh (JC-818538L), 01 Jan 2004

Nb Sub Gopal Singh (JC-818540H), 01 Feb 2004

Nb Sub Kundlesh Prasad Gautam (JC-818556N), 03 Feb 2004#

Nb Sub Devi Datt Tiwari (JC-818541L), 01 Feb 2004

Nb Sub Shiv Muni Singh (JC-818542N), 01 Feb 2004

Nb Sub Narendra Yashvant Chavan (JC-818543W), 01 Feb 2004

Nb Sub Lalji Pandey (JC-818545F), 01 Feb 2004

Nb Sub Mahatim Dubey (JC-818546K), 01 Feb 2004

Nb Sub Ram Kanwar (JC-818552X), 01 Feb 2004

Nb Sub Narendra Kumar (JC-818553A), 01 Feb 2004

Nb Sub Ram Pal Singh (JC-818554H), 01 Feb 2004

Nb Sub Ram Niwas (JC-818555L), 03 Feb 2004#

Nb Sub Krishana Singh (JC-818558Y), 01 Feb 2004

Nb Sub Vithal (JC-818559F), 01 Feb 2004

Nb Sub Jai Kumar Sarawat (JC-818560W), 01 Feb 2004

Nb Sub Harpal Singh (JC-818561Y), 01 Feb 2004

Nb Sub Jugti Ram (JC-818563K), 01 Feb 2004

Nb Sub Balwan Singh (JC-818564M), 01 Feb 2004

Nb Sub Krishan Lal Mahia (JC-818565P), 17 Feb 2004#

Nb Sub Deb Nath Biswas (JC-818566X), 04 Mar 2004##

Nb Sub Ram Avtar (JC-818567A), 20 Feb 2004###

Nb Sub Patel Narayan Bhai Magan Bhai (JC-818568H), 01 Mar 2004

Nb Sub Jaswant Singh Khatri (JC-818575Y), 01 Mar 2004

Nb Sub Arun Kumar Singh (JC-818576F), 13 Mar 2004\$

Nb Sub Arun Kumar Singh (JC-818577K), 01 Mar 2004

Nb Sub Anil Kumar (JC-818578M), 01 Mar 2004

Nb Sub Raj Pal Singh (JC-818579P), 01 Mar 2004

Nb Sub Satyapal Singh (JC-818580K), 01 Apr 2004

Nb Sub Ram Kuwar (JC-818584A), 01 Apr 2004

Nb Sub Ramayan Yadav (JC-818585H), 01 Apr 2004

Nb Sub Sube Singh (JC-818587N), 01 Apr 2004

Nb Sub Gupteshwar Nath Pandey (JC-818588W), 01 Apr 2004

Nb Sub Harlal Singh Dhaka (JC-818590N), 01 Apr 2004

Nb Sub Durga Singh (JC-818592Y), 16 Apr 2004%

Nb Sub Bholanath Chowdhury (JC-818594K), 01 Apr 2004

Nb Sub Murlidhar Pradhan (JC-818597X), 01 Apr 2004

Nb Sub Kashi Nath Singh (JC-818599H), 01 Apr 2004

Nb Sub Fanindra Kumar Pathak (JC-818600M), 05 Apr 2004%

Nb Sub Prakashan M (JC-818602X), 01 Apr 2004

Nb Sub Daya Singh Sahrawat (JC-818603A), 01 Apr 2004

Nb Sub Ranbir Singh Narwal (JC-818604H), 01 Apr 2004

Nb Sub Chakradhar Hati (JC-818605L), 01 Apr 2004

Nb Sub Bhagwan Dass (JC-818606N), 12 Apr 2004%

Nb Sub Rajendra Singh (JC-818671N), 01 May 2004

Nb Sub Jitendra Singh (JC-818607W), 01 May 2004

Nb Sub Amendra Tiwari (JC-818609F), 01 May 2004

Nb Sub Abhey Singh Yadav (JC-818610W), 01 May 2004

Nb Sub P Joy Kumar Sinha (JC-818611Y), 21 Jun 2004^

Nb Sub Madhaw Prasad Singh (JC-818612F), 01 Jul 2004

Nb Sub Bhoodev Singh (JC-818613K), 01 Jul 2004

Nb Sub Jagdish Prasad (JC-818614M), 05 Jul 2004&

- Nb Sub Damburu Dalai (JC-818616X), 02 Aug 2004\*
- Nb Sub PH Basna Singha (JC-818617A), 12 Aug 2004\*
- Nb Sub Rajendra Singh (JC-818618H), 01 Aug 2004
- Nb Sub Dharam Pal Singh (JC-818619L), 02 Aug 2004\*
- Nb Sub Sukh Dev Singh (JC-818620A), 01 Aug 2004
- Nb Sub Vatane Ambadass Bhagwan Rao (JC-818621H), 01 Aug 2004
- Nb Sub Patil Manik Ram Bima Rao (JC-818622L), 01 Aug 2004
- Nb Sub Bass Deo Singh Chauhan (JC-818623N), 02 Aug 2004\*
- Nb Sub Daya Ram (JC-818624W), 01 Aug 2004
- Nb Sub Ram Kumar Sharma (JC-818625Y), 01 Aug 2004
- Nb Sub Sadanand Sambaragi (JC-818626A), 02 Aug 2004\*
- Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-818627K), 02 Aug 2004\*
- Nb Sub Kapoor Singh (JC-818628M), 02 Aug 2004\*
- Nb Sub Shri Chandra (JC-818629P), 01 Aug 2004
- Nb Sub Sudhakaran KP (JC-818630K), 02 Aug 2004\*
- Nb Sub Bhagwat Ray (JC-818631M), 01 Aug 2004
- Nb Sub Mohinder Lal (JC-818632P), 01 Aug 2004
- Nb Sub S Rengasamy (JC-818633X), 01 Aug 2004
- Nb Sub S Anandam (JC-818635H), 16 Aug 2004\*
- Nb Sub Purushottam Yadav (JC-818636L), 01 Sep 2004
- Nb Sub Santokh Singh (JC-818638W), 16 Sep 2004+
- Nb Sub Bhomaram Bishnoi (JC-818639Y), 01 Sep 2004
- Nb Sub Harihar Singh (JC-818640N), 01 Sep 2004
- Nb Sub Bhupender Chand (JC-818641W), 01 Sep 2004
- Nb Sub Rohitashwa (JC-818642Y), 01 Sep 2004
- Nb Sub Dwijendra Nath Barman (JC-818643F), 01 Sep 2004
- Nb Sub Bharat Singh Verma (JC-818644K), 01 Sep 2004
- Nb Sub Vasudevan M (JC-818645M), 01 Sep 2004
- Nb Sub Nijam Haider Khan (JC-818646P), 01 Sep 2004
- Nb Sub Liladhar Nath (JC-818647X), 01 Sep 2004
- Nb Sub Ram Niwas (JC-818648A), 01 Sep 2004
- Nb Sub Satya Pal Singh (JC-818649H), 01 Sep 2004
- Nb Sub Mahipal Singh Dhayal (JC-818650X), 01 Sep 2004
- Nb Sub Mohinder Singh (JC-818651A), 01 Sep 2004
- Nb Sub Bhagwan Das Tiwari (JC-818652H), 21 Sep 2004+
- Nb Sub Arup Kumar Biswas (JC-818653L), 01 Oct 2004
- Nb Sub Rambir Singh (JC-818654N), 01 Oct 2004
- Nb Sub Dina Nath Pandey (JC-818655W), 01 Oct 2004
- Nb Sub Karan Singh Bhau (JC-818656Y), 01 Oct 2004
- Nb Sub Ram Naresh Tripathi (JC-818657F), 01 Oct 2004
- Nb Sub Shiv Raj Singh (JC-818658K), 01 Nov 2004
- Nb Sub Apurba Kumar Bharali (JC-818659M), 01 Nov 2004
- Nb Sub Lal Mani (JC-818789P), 29 Dec 2004++
- Nb Sub Bansode Chandra Kant (JC-818660F), 01 Dec 2004
- Nb Sub Awale Hanumant Balu (JC-818661K), 01 Dec 2004
- Nb Sub Shiv Singh (JC-818662M), 10 Jan 2005\*\*
- Nb Sub Indu Medhi (JC-818663P), 01 Jan 2005
- Nb Sub Suraj Mal (JC-818664X), 01 Jan 2005
- Nb Sub Rama Shankar Singh (JC-818665A), 01 Jan 2005
- Nb Sub Satnarayan Sharma (JC-818666H), 01 Jan 2005
- Nb Sub Rabi Narayan Mahapatra (JC-818668N), 01 Jan 2005
- Nb Sub Akshay Kumar Singh (JC-818669W), 06 Jan 2005\*\*
- Nb Sub Vinod Kumar Badola (JC-818670L), 01 Jan 2005
- Nb Sub S B Pande Gaon (JC-818672W), 01 Jan 2005
- Nb Sub Hari Krishna Yadav (JC-818674F), 01 Jan 2005
- Nb Sub Sunil Kumar (JC-818675K), 01 Jan 2005
- Nb Sub Dina Nath Singh (JC-818676M), 01 Jan 2005
- Nb Sub Chandr Mory (JC-818677P), 01 Jan 2005
- Nb Sub Jaswant Singh (JC-818678X), 01 Jan 2005
- Nb Sub Hari Om (JC-818680P), 01 Jan 2005
- Nb Sub Data Ram Sharma (JC-818681X), 03 Jan 2005\*\*
- Nb Sub Ramkrit Prasad (JC-818682A), 10 Jan 2005\*\*
- Nb Sub Kala Ram (JC-818683H), 01 Jan 2005
- Nb Sub Kuber Nath (JC-818684L), 01 Jan 2005
- Nb Sub Ram Nandan Yadav (JC-818685N), 01 Jan 2005
- Nb Sub Khageswar Mohapatra (JC-818686W), 17 Jan 2005\*\*
- Nb Sub Ranjit Kumar Roy (JC-818687Y), 01 Jan 2005
- Nb Sub Muktiyar Singh (JC-818781H), 01 Jan 2005
- Nb Sub Mool Chand (JC-818688F), 01 Jan 2005

Nb Sub Ramakant Yadav (JC-818691F), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Amar Kumar Singh (JC-818692K), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Radha Krishan Pandey (JC-818693M), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Laxmi Prasad (JC-818695X), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Ram Prakash Singh (JC-818696A), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Het Ram (JC-818697H), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Satish Chandra (JC-818698L), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Bhubaneswar Baishya (JC-818699N), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Kameshwar Singh (JC-818700X), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Md Mubarak Ali (JC-818701A), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Bhagat Ram (JC-818704N), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Mir Momotaj Ali (JC-818705W), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Dipendra Kumar Singh (JC-818706Y), 07 Jan 2005\*\*  
 Nb Sub Nirmal Kumar Singh (JC-818764H), 17 Jan 2005\*\*  
 Nb Sub Mane Chandra Kant Dada (JC-818708K), 10 Jan 2005\*\*  
 Nb Sub S Kolandesu (JC-818709M), 25 Jan 2005\*\*  
 Nb Sub Hoshiyar Singh (JC-818710F), 28 Jan 2005\*\*  
 Nb Sub Siyaram Kumar Singh (JC-818711K), 01 Feb 2005  
 Nb Sub Udho Prasad (JC-818712M), 01 Feb 2005  
 Nb Sub Ashik Ali (JC-818713P), 07 Mar 2005@@  
 Nb Sub Dharamvir (JC-818714X), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Bharat Singh (JC-818715A), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Garaj Narain Ram (JC-818716H), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Parmeshwar Singh (JC-818717L), 01 Apr 2005  
 Nb Sub Raj Kumar Upadhyay (JC-818718N), 01 Apr 2005  
 Nb Sub Ghana Shyam Sonowal (JC-818719W), 01 Apr 2005  
 Nb Sub Sushil Kumar (JC-818720L), 01 Apr 2005  
 Nb Sub Lala Ram (JC-818721N), 21 Apr 2005\$\$  
 Nb Sub Mangla Raj Yadava (JC-818722W), 04 Apr 2005\$\$  
 Nb Sub Randhir Singh (JC-818723Y), 01 Apr 2005  
 Nb Sub SN Pattanayak (JC-818724F), 01 Apr 2005  
 Nb Sub Chhakkai Lal Pal (JC-818725K), 01 Apr 2005  
 Nb Sub Sahidur Rahaman (JC-818727P), 01 Apr 2005

@(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

#(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

##(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 02 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

###(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 13 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

\$(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

%(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances).

^(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

&(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

\*(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

+(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

++(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

\*\*(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

@@(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

\$\$ (Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

To be Subedar (Cik)

Nb Sub Subash Chand Sharma (JC-818443L), 07 Jan 2005\*

Nb Sub Pradip Kumar Rana (JC-818450F), 22 Jan 2005\*

Nb Sub Anil Kumar Srivastava (JC-818451K), 01 Apr 2005

\*(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

To be Subedar (GD)

Nb Sub Arjun Denoise Tirkey (JC-818347W), 01 Aug 2003

DIWAKAR  
Under Secy.

No. 409, dated 19th July 2005.—The President is pleased to make the following promotion.

Name of persons, Promotion and Date of Promotion—

Shri Sunil Kumar Dhar, Private Secretary, 12 Jul 2004

M. V. VIJAYAN  
Desk Officer

No. 410, dated 18th July 2005.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY**  
**PERMANENT COMMISSION**  
**(ARMY MEDICAL CORPS)**

Col (& equivalent) to be Brig (& equivalent)

T P Madhusoodhanan (MR-03042X), 02 Oct 2003 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Aug 2003.

Lt Col (& equivalent) to be Col (& equivalent)

PC Tripathy (MR-04237P), 15 Mar 2004 with notional seniority without effect on pay and pension from 12 Sep 2003.

R K Singh (MR-04437L), 05 Apr 2004 with notional seniority without effect on pay and pension from 02 Nov 2003.

AL Das (MR-04513M), 19 Apr 2004 with notional seniority without effect on pay and pension from 02 Dec 2003.

S. K. SHARMA  
Brig  
Dy DGAFFMS(P)

**ARMY BRANCH**

No. 411, dated 19th July 2005.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons :—

**REGULAR ARMY**  
**PERMANENT COMMISSION**

IC-35308 Col Harkirat Singh Mangat, Arty, 22 Feb 2005 (AN)

IC-38413 Lt Col DN Khadse, Arty, 22 Feb 2005 (AN)

IC-36303 Col PS Nanda Kumar, Arty, 14 Feb 2005 (AN)

IC-38662 Maj MB Ravindranath, VrC, Inf, 03 Nov 2001 (AN)

IC-33123 Col VM Joneja, Inf, 11 May 2003 (AN)

IC-31377 Col Allada Samuel Priya Vinod, Inf, 18 Jun 2004 (AN)

IC-31000 Col Ajai Singh, Guards, 14 Jan 2005 (AN)

IC-30213 Col Bose Jogendra Koushal, AOC, 19 Feb 2005 (FN)

IC-19014 Col Diddee Vijay Kumar, AC, 10 Apr 2000 (AN)

IC-31113 Lt Col Ajai Saxena, AC, 10 Aug 2000 (FN)

IC-37313 Lt Col CS Pillai, EME, 30 Jan 2001 (AN)

IC-30996 Lt Col Ratan Sanjeev, Engrs, 28 May 2000 (AN)

IC-30238 Col Surinder Nath Kuda, Engrs, 31 Aug 2000 (AN)

IC-30737 Col Raja Gopalan Suresh, Engrs, 30 May 2001 (AN)

IC-36639 Col Mitra Subir Kumar, Engrs, 07 Aug 2004 (AN)

IC-35797 Col Krishna Swamy, Engrs, 05 Sep 2004 (AN)

IC-24827 Col Bhattacharya Kanchan, Sigs, 27 Nov 2000 (AN)

IC-36135 Col RD Gupta, Sigs, 25 Feb 2001 (AN)

IC-26532 Col Kanjilal Sanjiv Chandra, Sigs, 04 Apr 2000 (AN)

IC-23020 Col Vijender Singh Chaudhry, Sigs, 30 Apr 2000 (AN)

IC-25755 Col Kulbir Singh, Sigs, 30 May 2001 (AN)

IC-35030 Lt Col Arun Kumar Lal, Sigs, 24 Jul 2000 (AN)

IC-24702 Col Lalitendu Kumar Das, Sigs, 25 Mar 2001 (AN)

IC-27546 Col Krishan Singh, Sigs, 15 Sep 2001 (AN)

IC-32054 Col Sachdeva Rakesh, Sigs, 26 Apr 2001 (AN)

IC-37926 Lt Col Pandiyan M, Sigs, 04 Aug 2004 (FN)

IC-45061 Maj Rajkumar, Sigs, 20 Jun 2004 (AN)

IC-41045 Lt Col Mandava Venkata Ranga Rao, Sigs, 09 Aug 2004 (AN)

IC-33180 Col Mirza Ameer Ahmed, Arty, 08 Nov 2000 (AN)

IC-37254 Lt Col KR Sasikumar, SM, Arty Avn, 30 Apr 2001 (AN)

IC-30691 Col Sen Gautam, AC, 07 Feb 2001 (AN)

IC-27359 Col Harprit Singh Dhaliwal, AC, 20 Nov 2001 (AN)

IC-27346 Col Rajindar Chand Rana, AC, 24 Jun 2003 (AN)

IC-38310 Lt Col Ummat Anil, AC, 30 Jun 2005 (AN)

IC-27870 Col Ashok Kumar Sharma, AC, 10 Aug 2004 (AN)

IC-36842 Lt Col NP Sarasakshan, Inf, 27 Sep 2000 (AN)

IC-25297 Col Wahi Naresh Chander, EME, 27 Feb 2000 (AN)

IC-30299 Col DPS Grewal, EME, 22 May 2001 (AN)  
IC-34319 Col Amrit Paul Singh Uppal, EME, 31 Aug 2003 (AN)  
IC-38602 Col Kuruvilla Mathai, EME, 25 Apr 2004 (AN)  
IC-36644 Col Jasbir Singh Rajpal, EME, 08 Aug 2004 (AN)  
IC-24322 Col Shekhawat Devendra Singh, Inf, 30 Sep 2000 (AN)

IC-34788 Lt Col Charan Navdeep Singh, Inf, 15 Jul 2000 (AN)  
IC-34594 Lt Col Bhaskar Nanda Kumar, Inf, 24 Dec 2002 (AN)  
IC-34045 Col Singh Yashpal, Inf, 24 Jun 2003 (AN)  
IC-27351 Col NA Mudakatte, Inf, 20 Aug 2004 (AN)

R K SHARMA  
Joint Director  
MS/PR